



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2003/माघ 30, 1924

No. 164]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2003/MAGHA 30, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2003

का.आ. 198(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 228 (अ) तारीख 22 फरवरी, 2002 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर (80/580 कि.मी. से 92/058 कि.मी. तक) के (कृष्णागिरी- रानीपेट खण्ड) को चार लेन का बनाने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी है ;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

जिला : वेल्लोर

तालुक : वनियामबाड़ी

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की किस्म	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मी० में	भूस्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	थोट्टालम					
		11/3बी	निजी	शुष्क	050	रामनजुलू पुत्र चेंगलवराया नायडू (1) थाटचयानी अम्मल पत्नी राममूर्ति (2) थाटचिनामूर्ति पुत्र राममूर्ति (3) (अवयस्क)
		11/5बी	निजी	शुष्क	500	रामनजुलू पुत्र चेंगलवरइया नायडू (1) थंगवेल पुत्र कोरा सुब्बू (2) पन्डू पुत्र कोरा सुब्बू (3) वी राजा पुत्र वरधान (4) जोति पुत्र गुरुमूर्ति (5) जयालक्ष्मी पत्नी चन्द्रन (6) बाई सोलोमन पुत्र येसुपाथम (7)
		12/1बी	निजी	शुष्क	350	संकसारजी पुत्र चिन्नाथम्बी नायडू
		12/2	निजी	शुष्क	150	शंकरा नायडू पुत्र वेंकटरमा नायडू
		13/1बी	निजी	शुष्क	1050	कुप्पूसामी मंदिरी पुत्र गोविन्द मंदिरी
		13/2ए 2	निजी	शुष्क	048	संकरा नायडू पुत्र वेंकटरमा नायडू
		13/2बी	निजी	मकान स्थल	306	संकरा नायडू पुत्र वेंकटरमा नायडू
		27/2	निजी	मकान स्थल	1200	संकसारजी पुत्र चिन्नाथम्बी नायडू
		30/5ए2	निजी	शुष्क	100	संकसारजी पुत्र चिन्नाथम्बी नायडू
		30/5बी2	निजी	शुष्क	400	कल्याणी अम्मल पत्नी समपथ नायडू बालचन्द्रन पुत्र समपथ नायडू मोहनम पुत्र समपथ नायडू (3) इथीराज पुत्र समपथ नायडू (4) गांधी पुत्र समपथ नायडू (5) वक्तवचलम पुत्र समपथ नायडू (6) संकरन पुत्र समपथ नायडू (7) बाबू पुत्र समपथ नायडू (8) एस बानुमथी पुत्री समपथ नायडू (9) मुरली पुत्र समपथ नायडू (10) एस रवी पुत्र समपथ नायडू (11)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		30/7बी	निजी	शुष्क	500	कल्याणी अम्मल पत्नी समपथ नायडू बालचन्द्रन पुत्र समपथ नायडू मोहनम पुत्र समपथ नायडू (3) इथीराज पुत्र समपथ नायडू (4) गांधी पुत्र समपथ नायडू (5) बकथावटचम पुत्र समपथ नायडू (6) संकरन पुत्र समपथ नायडू (7) बाबू पुत्र समपथ नायडू (8) एस बानुमथी पुत्र समपथ नायडू (9) मुरली पुत्र समपथ नायडू (10) एस रवी पुत्र समपथ नायडू (11)
		32/2	निजी	शुष्क	350	श्रीनिवास नायडू पुत्र कुप्पूसामी नायडू
		33/1बी	निजी	शुष्क	950	सुलोचना पत्नी वर्धराजुलू (1) रीता पत्नी गजेन्द्र नायडू
		33/2	निजी	शुष्क	250	सुलोचना पत्नी वर्धराजुलू नायडू (1) रीता पत्नी गजेन्द्र नायडू (2) आर बासकरन पुत्र राजाबाथर नायडू (3)
		33/3बी	निजी	शुष्क	500	आर बासकरन पुत्र राजाबाथर नायडू
		33/4बी	निजी	शुष्क	500	संकरारजी पुत्र चिन्नाथम्बी नायडू
		33/5बी	निजी	शुष्क	1050	श्रीनिवास नायडू पुत्र कुप्पूसामी
		33/6	निजी	शुष्क	200	संकरारजी पुत्र चिन्नाथम्बी नायडू (1) श्रीनिवासुलू नायडू पुत्र कुप्पूसामी नायडू (2)
		33/7	निजी	शुष्क	050	आर बासकरन पुत्र राजाबाथर (1) आर जर्नार्धन पुत्र राजाबाथर (2)
		55/2	निजी	शुष्क	1500	एम दूरई पुत्र मुरुगान
		56/2ए2	निजी	नम	150	अरुमुघम पुत्र कुल्लेरी
		56/2बी2	निजी	नम	700	बी पालदुरई पुत्र बालासुंदरम
		57/2बी	निजी	नम	030	अरुमुघम पुत्र कुल्लेरी
		58/1ए1बी	निजी	नम	150	एन्थनी डेनियलराज पुत्र इसरावेल
		58/1ए2	निजी	नम	077	अन्थोनी डेनियलराज पुत्र इसरावेल (1) बाबू सोन्दराज पुत्र इसरावेल (2) संथा सेलवराज पुत्र इसरावेल (3)
		58/1ए3बी	निजी	नम	350	संथा सेलवराज पुत्र इसरावेल
		58/1ए4बी	निजी	नम	300	बाबू सोन्दराज पुत्र इसरावेल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		58/1बी	निजी	मकान स्थल	150	अन्थोनी डेनियलराज पुत्र इसरावेल (1) बाबू सोन्दराज पुत्र इसरावेल (2) संथा सेलवराज पुत्र इसरावेल (3)
		58/2बी	निजी	नम	700	बाबू सोन्दराज पुत्र इसरावेल
		59/3बी1बी	निजी	शुष्क	350	कमलनाथन पुत्र मेशक
		59/3बी2बी	निजी	शुष्क	600	मनोनमणि पत्नी पोन्नी (1) विजयन पुत्र पोन्नी (2) तमिलरासन पुत्र पोन्नी (3) अरुणप्रसाद पुत्र पोन्नी (4) गिरी पुत्र पोन्नी (5)
		59/3बी3	निजी	शुष्क	050	कमलनाथन पुत्र मेशक (1) मनोनमणि पत्नी पोन्नी (2) विजयन पुत्र पोन्नी (3) तमिलरासन पुत्र पोन्नी (4) अरुणप्रसाद पुत्र पोन्नी (5) गिरी पुत्र पोन्नी (6)
		59/4ए2बी	निजी	शुष्क	1000	जयालकक्ष्मी पत्नी रंगनाथन
		59/4बी2	निजी	शुष्क	150	अन्थोनी डेनियलराज पुत्र इसरावेल (1) बाबू सोन्दराज पुत्र इसरावेल (2) संथा सेलवराज पुत्र इसरावेल (3)
		88/4बी	निजी	मकान स्थल	091	गांधी पुत्र डेनियल
		88/8	निजी	मकान स्थल	082	ललिता पत्नी अबिशेकम (1) पेरीसमरई पुत्री अबिशेकम (2) थेपोन्श पत्नी अबिशेकम (3)
		88/9	निजी	मकान स्थल	022	अर्जुनन पुत्र सरीरामु (1) सुब्रमणि पुत्र अब्बाई मंदिरी (2)
		88/10	निजी	मकान स्थल	028	चिन्नादुरई पुत्र इरुसन
		88/11	निजी	मकान स्थल	049	कुमार पुत्र गोपाल
		88/12बी	निजी	मकान स्थल	750	थावमणि पुत्र जीवस्थीनम (1) अरुलमणि पुत्र समीनाथन (2) जेस्सी पत्नी थावमणि (3) राजी पुत्र देवराज (4) जार्ज पुत्र देवराज (5)
		92/2बी	निजी	शुष्क	900	जेगदाम्मल पत्नी नागस्थीनम
		93/1बी2	निजी	शुष्क	300	एस डी बाबू पुत्र दुरईसामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		106/34	निजी	मकान स्थल	132	कुप्पन पुत्र नतेसा गोंडर (1) दसस्थन पुत्र नतेसा गोंडर (2)
		106/35	निजी	मकान स्थल	017	पिटचण्डी पुत्र मुथू गोंडर
		106/37बी	निजी	मकान स्थल	128	कुप्पूसामी पुत्र मुनीसामी नायडू
		106/41बी	निजी	मकान स्थल	200	पलानी मुदलियार पुत्र वैयापुरी
		106/48	निजी	मकान स्थल	175	जेयाम्मल पत्नी कुमारसामी गोंडर
		106/50	निजी	मकान स्थल	079	अरुपुथाम्मल पत्नी गोपाल गोडर
		106/51	निजी	मकान स्थल	051	मुरुगेसन पुत्र चिन्नाप्पा गोंडर
		106/54बी	निजी	मकान स्थल	076	दानसेकरन पुत्र अन्नामलई गोंडर
		107/1	निजी	मकान स्थल	046	गोविन्दन पुत्र कुलन्डी गोंडर
		107/2	निजी	मकान स्थल	048	गोविन्दन पुत्र कुलन्डी गोंडर
		107/3	निजी	मकान स्थल	081	कन्नीप्पान पुत्र महादेव गोंडर
		107/4	निजी	मकान स्थल	194	तमिलसेलवी पत्नी सेकर
		107/5	निजी	मकान स्थल	031	कुप्पन पुत्र नतेसा गोंडर (1) दसस्थन पुत्र नतेसा गोंडर (2)
		109/1	निजी	शुष्क	300	पलानी गोडर पुत्र दुरईसामी गोंडर
		109/2	निजी	शुष्क	450	रमालीनघम पुत्र दुरईसामी गोंडर
		109/3	निजी	शुष्क	100	पलानी गोंडर पुत्र दुरईसामी गोंडर
		109/4	निजी	शुष्क	100	पोन्नूरंगम पुत्र नारायणसामी गोंडर
		113/1बी	निजी	शुष्क	1050	संथाम्मल पत्नी कन्नाय्या नायडू (1) मुरली पुत्र कन्नाय्या नायडू (2) रंगनाथन (अवयस्क) पुत्र कन्नाय्या नायडू (3) (संरक्षक माता संथाम्मल)
		113/2बी	निजी	शुष्क	1700	रागवालू नायडू पुत्र सुब्बाय्या नायडू
		121/1बी2	निजी	शुष्क	012	लोगीदोस पुत्र सिवप्रकास नायडू
		121/5ए1बी	निजी	शुष्क	030	लोगीदोस पुत्र सिवप्रकास नायडू
		121/5ए2बी	निजी	शुष्क	081	मुरुगेसन पुत्र गोविन्दसामी नायडू
		121/5बी1बी	निजी	शुष्क	058	मुनीसामी पुत्र नाल्ला वेनकीदिखन
		121/5बी2बी	निजी	शुष्क	071	चिन्नासामी और लक्ष्मण पुत्र पोटटू मुनीखान
		121/5बी3बी	निजी	शुष्क	150	कुलन्डी अम्मल पत्नी मणिका मंदिरी (1) समपूरनम पत्नी कुप्पासामी मंदिरी (2) उलागमथा पत्नी चन्द्रन (3) एम वैकटेशन पुत्र मणिका मंदिरी (4) एम राघवन पुत्र मणिका मंदिरी (5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		122/1बी	निजी	शुष्क	250	टी जी पेरूमल पुत्र गोविन्द मंदिरी
		122/2बी	निजी	शुष्क	500	गोविन्दम्मल पत्नी बालासुन्दरम (1) वेंकटेशन पुत्र बालासुन्दरम (2) पलानी पुत्र बालासुन्दरम (3) रवी पुत्र बालासुन्दरम (4) बबियाम्मल पत्नी थोला मंदिरी (5) रामालिधम पुत्र बालासुन्दरम (6)
		126/1ए	निजी	शुष्क	050	दामोदरन पुत्र गोविन्दसामी नायडू (1) कस्तूरी पत्नी रगवालू नायडू (2)
		126/3ए	निजी	शुष्क	300	ईश्वरी अम्मल पत्नी बालाजी नायडू
		129/1ए1	निजी	शुष्क	084	सेलवराजी पुत्र राजराथिनम
		129/1बी1	निजी	मकान स्थल	074	सेलवराजी पुत्र राजराथिनम
		129/2ए	निजी	शुष्क	200	पद्ममा जैन पत्नी राजेन्द्रकुमार
		129/3ए1	निजी	शुष्क	200	कंगाम्मल पत्नी देवराजी नायडू (1) कन्नन पुत्र देवराजी नायडू (2) गेन्नादरन पुत्र देवराजी नायडू (3) समीदुरई पुत्र देवराजी नायडू (4) कनछाना पुत्री देवराजी नायडू (5)
		129/3बी1	निजी	शुष्क	011	वेंकटपथी पुत्र गोविन्दसामी नायडू
		129/4ए1	निजी	शुष्क	150	वेंकटपथी पुत्र गोविन्दसामी नायडू
		129/4बी1	निजी	शुष्क	200	पेरूमल पुत्र गोविन्दसामी नायडू
		129/4सी1	निजी	शुष्क	250	दामोदरन पुत्र गोविन्दसामी नायडू (1) कस्तूरी पत्नी रावलू नायडू (2)
		131/1ए	निजी	शुष्क	150	रागवालू नायडू पुत्र सुब्बाय्या नायडू
		131/2ए1	निजी	मकान स्थल	150	मोहन पुत्र संकराय्या नायडू (1) युवराज पुत्र संकराय्या नायडू (2)
		146/3ए	निजी	मकान स्थल	050	ईश्वरी अम्मल पत्नी बालाजी नायडू
		161/1ए	निजी	मकान स्थल	062	रामचन्द्रन नायडू पुत्र दुरईसामी नायडू
		161/4ए	निजी	मकान स्थल	036	गोपाल पुत्र दुरईसामी नायडू (1) पान्दुरागन पुत्र दुरईसामी नायडू (2)
		161/7ए	निजी	मकान स्थल	034	गोपाल पुत्र दुरईसामी नायडू (1) पान्दुरागन पुत्र दुरईसामी नायडू (2)
		162/1ए1ए	निजी	शुष्क	100	वेंकटपथी पुत्र गोविन्दसामी नायडू (1) पेरूमल पुत्र गोविन्दसामी नायडू (2) नागराज पुत्र गोविन्दसामी नायडू (3) दामोदरन पुत्र गोविन्दसामी नायडू (4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		162/1ए2ए	निजी	शुष्क	100	ईश्वरी अम्मल पत्नी बालाजी नायडू
		162/1ए3ए	निजी	शुष्क	013	सुसीला पत्नी चन्द्रसेकरन (1) कस्तूरी अम्मल पत्नी रागवालू नायडू (2)
		162/1बी1	निजी	शुष्क	22	ईश्वरी अम्मल पत्नी बालाजी नायडू
		163/1	निजी	शुष्क	850	चेन्नई स्टेट भूदान बोर्ड, मदुरै
		166/1ए	निजी	शुष्क	075	पुष्पाम्मल पत्नी इयालू
		166/2ए	निजी	शुष्क	300	जी कुमार पुत्र जार्ज (1) जी उध्याकुमार पुत्र जार्ज (2) जी मार्टिन पुत्र जार्ज (3)
		166/3ए	निजी	शुष्क	025	ए जोहन रिचर्ड पुत्र अरूलानन्दम (1) ए समपथ पुत्र अरूलानन्दम (2)
		166/4ए	निजी	शुष्क	300	जी कुमार पुत्र जार्ज (1) जी उध्याकुमार पुत्र जार्ज (2) जी मार्टिन पुत्र जार्ज (3)
		166/5ए	निजी	शुष्क	350	विकटोरिया पत्नी मणिवेलू (1) कुमार पुत्र मणिवेलू (2)
		166/7ए1	निजी	मकान स्थल	074	मोहन पुत्र वेधनायगम
		166/7बी1	निजी	मकान स्थल	145	धनराज पुत्र चेदियन
		166/7सी1	निजी	शुष्क	032	मोहन पुत्र वेधनायगम (1) वाईदुरईराज पुत्र येसुदोस (2)
		168/1	निजी	शुष्क	1050	अरुमुगम पुत्र कुल्लेरी
		173/1ए1	निजी	शुष्क	350	उमापथी पुत्र वरधराजी नायडू
		173/1बी1	निजी	शुष्क	150	उमापथी पुत्र वरधराजी नायडू (1) पन्डूरंगन पुत्र वरधराजी नायडू (2) रवी पुत्र वरधराजी नायडू (3)
		173/1सी1	निजी	शुष्क	150	उमापथी पुत्र वरधराजी नायडू (1) पन्डूरंगन पुत्र वरधराजी नायडू (2) रवि पुत्र वरधराजी नायडू (3)
		174/1	निजी	शुष्क	250	आर जनार्दन नायडू पुत्र राजबाथर नायडू
		176/1ए	निजी	शुष्क	150	कस्तूरी अम्मल पत्नी एस रागवालू नायडू
		176/2ए	निजी	शुष्क	350	कस्तूरी अम्मल पत्नी एस रागवालू नायडू
		176/3ए	निजी	शुष्क	150	कस्तूरी अम्मल पत्नी एस रागवालू नायडू
		179/2ए1	निजी	शुष्क	070	रागवेन्द्रन पुत्र सेलवासुब्रमणियन
		179/2बी1	निजी	शुष्क	068	रागवेन्द्रन पुत्र सेलवासुब्रमणियन
		179/2सी1	निजी	शुष्क	122	सेलवासुब्रमणियन पुत्र शनमुघम
		179/2सी3	निजी	शुष्क	400	सेलवासुब्रमणियन पुत्र शनमुघम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		180/1ए	निजी	शुष्क	300	रागवेन्द्रन पुत्र सेलवासुब्रमणियन
		180/7ए1	निजी	शुष्क	200	रामन पुत्र प्थप्पा नायडू (1) देवराजी पुत्र प्थप्पा नायडू (2)
		180/7बी1	निजी	शुष्क	150	मनिका नायडू पुत्र अप्पई नायडू
		187/1	निजी	शुष्क	500	चिन्नप्पन पुत्र वेंकटरमा नायडू
		189/1ए1	निजी	शुष्क	050	वी चिन्नप्पन पुत्र वेंकटरमा नायडू (1) वी रंगासामी पुत्र वेंकटरमा नायडू (2) वी संकरन पुत्र वेंकटरमा नायडू (3)
		189/1बी1	निजी	शुष्क	050	चिन्नप्पन पुत्र वेंकटरमा नायडू
		189/1बी3	निजी	शुष्क	200	चिन्नप्पन पुत्र वेंकटरमा नायडू
		189/2ए1	निजी	शुष्क	150	चिन्नप्पन पुत्र वेंकटरमा नायडू
		189/2बी1ए	निजी	शुष्क	150	जी संकरा नायडू पुत्र वेंकटरमा नायडू (1) जी सुब्रमणियम पुत्र गोविन्दन (2) जी आनन्दन पुत्र गोविन्दन (3) जी राजेन्द्रन पुत्र गोविन्दन (4) जी मुनीसामी पुत्र गोविन्दन (5)
		189/2बी2ए	निजी	शुष्क	027	बास्कर पुत्र जगदीशा मुदलियार
		290/2ए	निजी	मकान स्थल	027	कमलाम्मल पत्नी दुरईसामी नायडू (1) लोगन पुत्र दुरईसामी नायडू (2) बाबू पुत्र दुरईसामी नायडू (3)
		290/6ए	निजी	मकान स्थल	021	लोगनाथन पुत्र कृष्णासामी नायडू
		290/10ए	निजी	मकान स्थल	014	रामचन्द्र नायडू पुत्र मुनीसामी नायडू
		290/13ए	निजी	मकान स्थल	032	राजम्मल पत्नी चिन्नाराजी नायडू (1) पितचन्दी पुत्र चिन्नाराजी नायडू (2)
		290/14ए	निजी	मकान स्थल	019	कृष्णन पुत्र अरुणाचला मंदिरी (1) गोविन्दन पुत्र अरुणाचला मंदिरी (2)
2.	मदनूर					
		41/1बी	निजी	शुष्क	250	विमला पत्नी ए वी जी वेलू (1) शर्मिला पुत्री ए वी जी वेलू (2) मदन कुमार पुत्र ए वी जी वेलू (3) गोबीनाथ पुत्र ए वी जी वेलू (4)
		42/1बी	निजी	शुष्क	850	विमला पत्नी ए वी जी वेलू (1) शर्मिला पुत्री ए वी जी वेलू (2) मदन कुमार पुत्र ए वी जी वेलू (3) गोबीनाथ पुत्र ए वी जी वेलू (4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		43/2	निजी	शुष्क	2600	अरुलमिगू कालीअम्मन कोइल प्रजेन्ट ट्रस्टी
		45ए/1बी	निजी	शुष्क	350	अरुलमिगू कालीअम्मन कोइल प्रजेन्ट ट्रस्टी
		45ए/2बी	निजी	शुष्क	650	जनारदनन पुत्र नतीशा गोंडर (1) ज्ञानवेल पुत्र नतीशा गोडर (2) वेनूगोपाल पुत्र नतीशा गोंडर (3)
		84/2ए1बी	निजी	शुष्क	8	आर संकरन पुत्र रामासामी नायडू (1) आर चिनप्पन पुत्र रामासामी नायडू (2)
		84/2बी2बी	निजी	शुष्क	150	अरुलमिगू द्रोवथईअम्मन मंदिर प्रजेन्ट ट्रस्टी
		85/1बी	निजी	शुष्क	300	कमलावेनी अम्मल पत्नी कन्नाप्पा मुदलई
		85/2बी	निजी	मकान स्थल	600	कमलावेनी अम्मल पत्नी कन्नाप्पा मुदलई
		89/1ए2	निजी	मकान स्थल	48	एम चिन्नईया नायडू पुत्र मुनीसामी नायडू
		89/1बी2	निजी	मकान स्थल	170	वेंकटाथिरी नायडू पुत्र चिन्नईया नायडू
		89/2बी	निजी	मकान स्थल	312	सुशीलाअम्मल पत्नी मनोगरन
		91ए/1ए	निजी	मकान स्थल	55	अम्बिगा पत्नी आर एस मणि
		91ए/2ए	निजी	मकान स्थल	30	राधाकृष्णनन पुत्र दुरईसामी पिल्लई
		91ए/3ए	निजी	मकान स्थल	27	श्रीनिवासन पुत्र डी के कुप्पूसामी
		91ए/4ए	निजी	मकान स्थल	70	संगुन्थलअम्मल पत्नी कोथन्दासामी पिल्लई
		91बी/5ए	निजी	मकान स्थल	80	अम्बिका पत्नी आर एस मणि
		91बी/1ए	निजी	मकान स्थल	118	सुलोचना पत्नी गोपाल (1) बथमावती पत्नी लोगनाथ मुदलियार (2) संगुन्थला पत्नी कोथन्दरामा पिल्लई (3) अरुमुगम पुत्र कन्नूसामी पिल्लई (4) बाला सुब्रमणि पुत्र कन्नूसामी पिल्लई (5) पंचातचरम पुत्र कन्नूसामी पिल्लई (6) शनमुघम पुत्र कन्नूसामी पिल्लई (7) जयवेलू पुत्र कन्नूसामी पिल्लई (8) सुंदरेशन पुत्र कमलानाथ पिल्लई (9) मुरुगेशन पुत्र कमलनाथ पिल्लई (10) संकरन पुत्र कमलनाथ पिल्लई (11) विनयागम पुत्र कमलनाथ पिल्लई (12) बाबू पुत्र कमलनाथ पिल्लई (13)
		91बी/2ए1	निजी	मकान स्थल	73	वसन्था पत्नी गोपाल गोंडर (1) सिवकुमार पुत्र गोपाल गोंडर (2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		91बी/2बी1	निजी	मकान स्थल	179	कृष्णासामी पुत्र भूपथी मुदलियार (1) जयरामन पुत्र भूपथी मुदलियार (2)
		91बी/2सी1	निजी	मकान स्थल	80	गोविन्दसामी पुत्र इकाम्बरा गोंडर
		91बी/2डी1	निजी	मकान स्थल	74	एस सुब्रमणिया गोंडर पुत्र सामीनाथ गोंडर
		91बी/2ई1	निजी	मकान स्थल	106	गणपथी पुत्र मुरुगेसा गोंडर (1) दक्षिणामूर्ति पुत्र धर्मालिगा गोंडर (2) करुणामूर्ति पुत्र धर्मालिगा गोंडर (3)
		91बी/2एफ1	निजी	मकान स्थल	126	पंचाईम्मल पत्नी सीताराम मुदलई
		91बी/2जी1	निजी	मकान स्थल	115	वी वेंकटसेकरन पुत्र वेंगटेश मुदलई
		92/1बी1ए	निजी	शुष्क	360	कृष्णन पुत्र रंगासामी मुदलियार
		92/1बी2ए	निजी	मकान स्थल	122	जनारदनम पुत्र सेवप्पा मुदलियार
		92/1बी4ए	निजी	मकान स्थल	44	रंगन पुत्र ईरा मुनूसामी (1) सुब्रमणि पुत्र रामासामी अचारी (2)
		92/1बी5ए	निजी	शुष्क	87	बाबा योगमूर्ति पुत्र रंगासामी मुदलियार
		92/2ए1ए	निजी	शुष्क	53	गणपथी गोंडर पुत्र मुरुगेसा गोंडर
		92/2ए2ए	निजी	शुष्क	26	भानू पत्नी सुरेश
		92/2बी1ए	निजी	मकान स्थल	52	जगदीसन पुत्र बीमराज
		92/2बी2ए	निजी	मकान स्थल	36	जगदीसन पुत्र वेलयुदम
		92/3ए3एच2	निजी	मकान स्थल	30	कुमार पुत्र मुथू गोंडर (1) वेलायुदम पुत्र मुथू गोंडर (2)
		92/4ए	निजी	मकान स्थल	14	सगुन्थला अम्मल पत्नी कोथन्डासामी
		92/5ए	निजी	मकान स्थल	16	दसराधन पुत्र मसिलमणि
		92/6ए	निजी	मकान स्थल	22	उदीशिग पुत्र बदेशिग
		92/7ए	निजी	मकान स्थल	11	सगुन्थला अम्मल पत्नी कोथन्डासामी
		92/8ए	निजी	मकान स्थल	26	रंगासामी गोंडर पुत्र चिन्नक्कानू गोंडर
		97/1ए	निजी	शुष्क	450	थिलागम पत्नी जनारदनम
		97/2ए	निजी	शुष्क	50	वी जयरामन पुत्र (1) के जनागिरामन पुत्र (2) जी गोविन्दराज पुत्र (3)
		113/1ए	निजी	शुष्क	1100	अरुलमिगू दरोबाथी अम्मन, धर्मराज और कालीम्मन कोइल - प्रजेन्ट ट्रस्टी
		121/1ए1ए	निजी	मकान स्थल	78	थंगावेल पुत्र अथमन्नन
		121/1ए2ए	निजी	शुष्क	200	अधीमूलम पुत्र गणेशा गोंडर (1) कृष्णामूर्ति पुत्र सिवासंकरा मुदलई (2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		121/14ए	निजी	मकान स्थल	106	जयामणि पुत्र चिन्नाकन्नन
		122/1ए	निजी	शुष्क	13	भूपथी अम्मल पत्नी कन्नीअप्पन
		122/2	निजी	मकान स्थल	18	राजा पुत्र गोविन्दन
		122/3ए	निजी	मकान स्थल	5	कुप्पन पुत्र चिन्नाप्पान
		122/4ए	निजी	मकान स्थल	19	मोहन पुत्र सेलवाम
		122/5ए	निजी	मकान स्थल	23	सुन्दरी पत्नी धयालन
		122/19ए	निजी	मकान स्थल	24	रामचन्द्रन पुत्र गोविन्दन
		122/22ए	निजी	मकान स्थल	55	अम्बिगा पत्नी मनोगरन
		122/23ए	निजी	मकान स्थल	47	महेश्वरी पत्नी कुमार
		123/1ए	निजी	शुष्क	50	अमसावेनी पत्नी वेलू
		123/2ए	निजी	शुष्क	100	लोगनाथन पुत्र नारायणसामी
		123/3ए	निजी	शुष्क	150	कृष्णन पुत्र लक्ष्मण गोंडर
		123/4ए	निजी	शुष्क	10	वेंगटेसन पुत्र राजागोपाल नाइकर
		126/1ए	निजी	शुष्क	450	विमला पत्नी वेलू (1) शर्मिला पुत्री वेलू (2) मदनकुमार पुत्र वेलू (3) मदनगोपाल पुत्र वेलू (4)
		126/3ए	निजी	शुष्क	150	सुशीला पत्नी बालसुब्रमणियम (1) अलागेसन पुत्र अप्पासामी (2)
		126/4ए1	निजी	शुष्क	30	अलागेसन पुत्र अप्पासामी
		126/4सी1	निजी	शुष्क	100	वासूदेवन पुत्र अप्पासामी
		126/5ए2ए	निजी	शुष्क	20	वासूदेवन पुत्र अप्पासामी
		126/5बी1	निजी	मकान स्थल	70	वदीवेल मदलई पुत्र पोन्नूसामी मुदलई
		126/5सी1	निजी	मकान स्थल	60	बेथेल चर्च प्रीसेन्ट प्रेसीडेन्ट
		127/1ए1	निजी	शुष्क	500	कृष्णासामी पुत्र गोविन्दराज मुदलई
		127/1बी1	निजी	शुष्क	300	अरुमुगम पुत्र गोविन्दराज मुदलई
		149/1ए	निजी	शुष्क	800	अरुमुगम पुत्र एम ए गणेशा गोंडर (1) कृष्णामूर्ति पुत्र सिवसंकरा मुदलई (2)
		149/3ए1	निजी	शुष्क	69	सुन्दरराजन पुत्र सुन्दरामूर्ति
		149/3बी1ए	निजी	शुष्क	50	आदिमूलम पुत्र एम ए गणेशा गोंडर (1) मनारकोडी पत्नी आदिमूलम (2) एस सोन्दरराजन पुत्र सोन्दरामूर्ति (3) राजा पुत्र वरादन (4) खण्ड विकास अधिकारी, मधानूर (5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		149/3बी2ए	निजी	शुष्क	70	आदिमूलम पुत्र एम ए गणेशा गोंडर (1) मनारकोडी पत्नी आदिमूलम (2) एस सोन्दराराजन पुत्र सोन्दरामूर्ति (3) राजा पुत्र वरादन (4) खण्ड विकास अधिकारी, मधानूर (5)
		149/3बी2सी	निजी	शुष्क	60	आदिमूलम पुत्र एम ए गणेशा गोंडर (1) मनारकोडी पत्नी आदिमूलम (2) एस सोन्दराराजन पुत्र सोन्दरामूर्ति (3) राजा पुत्र वरादन (4) खण्ड विकास अधिकारी, मधानूर (5)
		150/1ए1ए	निजी	मकान स्थल	44	नूलामणि अम्मल पत्नी गोविन्दराजी गोंडर
		150/1ए2ए	निजी	शुष्क	52	पप्पाम्मल पत्नी रंगासामी गोंडर
		150/1ए2सी	निजी	शुष्क	16	पप्पाम्मल पत्नी रंगासामी गोंडर
		150/1बी1	निजी	शुष्क	250	पप्पाम्मल पत्नी रंगासामी गोंडर
		1501डी1	निजी	शुष्क	100	रानीअम्मल पत्नी पीताम्बरम
		151/2ए	निजी	मकान स्थल	18	विजया पत्नी वलइया
		151/3ए	निजी	मकान स्थल	9	विजया पत्नी वलइया
		151/4ए	निजी	मकान स्थल	19	गोविन्दम्मल पत्नी पलानी
		151/5ए	निजी	मकान स्थल	47	मूर्ति पुत्र रंगासामी गोंडर
		151/6ए	निजी	मकान स्थल	22	राजारमन पुत्र मुनीसामी गोंडर (1) श्रीनिवासन पुत्र मुनूसामी गोंडर (2) वेंगटेशन पुत्र मुनूसामी गोंडर (3)
		158/8	निजी	मकान स्थल	17	विनायगम पुत्र काशीनाथन गोंडर (1) दामोदरन पुत्र काशीनाथ गोंडर (2) कुमार पुत्र काशीनाथन गोंडर (3) सदानन्दम पुत्र काशीनाथन गोंडर (4)
		151/9	निजी	मकान स्थल	20	विनायगम पुत्र काशीनाथन गोंडर (1) दामोदरन पुत्र काशीनाथ गोंडर (2) कुमार पुत्र काशीनाथन गोंडर (3) सदानन्दम पुत्र काशीनाथन गोंडर (4)
		151/12ए	निजी	मकान स्थल	47	कुमारेसन पुत्र पेरुम्मल गोंडर
		151/13ए	निजी	मकान स्थल	32	कमलम्मल पत्नी गोपाल गोंडर (1) गजेन्द्रन पुत्र गोपाल गोंडर (2) रघुनाथन पुत्र गोपाल गोंडर (3)
		151/14ए	निजी	मकान स्थल	37	काशी पुत्र मुरुगा गोंडर
		151/44ए	निजी	मकान स्थल	11	गोविन्दम्मल पत्नी पलामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		152/1ए1	निजी	शुष्क	100	विश्वनाथन पुत्र पोन्नूसामी (1) ललिता पत्नी राजावेलू (2) पुंगावनम पत्नी पोन्नूसामी (3)
		152/1बी1	निजी	शुष्क	100	थोप्पूसामी गोंडर पुत्र चिन्नासामी गोंडर
		152/1सी1	निजी	शुष्क	100	विश्वनाथन पुत्र चिन्नासामी गोंडर
		152/2ए	निजी	शुष्क	850	सिंगारावेलू पुत्र
		152/4ए	निजी	शुष्क	450	श्रीनिवास गोंडर पुत्र चिन्नईया गोंडर (1) रामा गोंडर पुत्र चिन्नईया गोंडर (2)
		155/3बी	निजी	शुष्क	50	आदिमूलम पुत्र गणेशा गोंडर (1) कृष्णमूर्ति पुत्र शिवसंकरा मुदलियार (2)
		156/3ए1बी	निजी	शुष्क	200	सैयद राबू पुत्र सुमीर साहिब
		156/3ए2ए	निजी	शुष्क	100	एम ए सैयद मुथूसा पुत्र सुमीर साहिब (1) एम ए सैयद रसीद पुत्र सुमीर साहिब (2) एम ए सैयद इदायत अली पुत्र सुमीर साहिब (3)
		156/3बी2	निजी	शुष्क	70	आदिमूलम पुत्र गणेशा गोंडर (1) कृष्णमूर्ति पुत्र शिवसंकरा मुदलियार (2)
		156/3सी	निजी	शुष्क	70	विट्टलेशन पुत्र अप्पूनु गोंडर
		156/3डी1बी	निजी	शुष्क	150	बाबीअम्मल पत्नी मनोहरन और अवयस्क संथी (संरक्षक बाबी अम्मल)
		156/3डी2बी	निजी	मकान स्थल	200	बाबीअम्मल पत्नी मनोहरन और अवयस्क संथी (संरक्षक बाबी अम्मल)
		156/3डी3बी	निजी	शुष्क	227	बाबीअम्मल पत्नी मनोहरन और अवयस्क संथी (संरक्षक बाबी अम्मल)
		165/1बी	निजी	शुष्क	400	बाबीअम्मल पत्नी मनोहरन और अवयस्क संथी (संरक्षक बाबी अम्मल)
		165/3बी	निजी	शुष्क	100	गोविन्दसामी गोंडर पुत्र एकमबारा गोंडर
		165/4बी	निजी	शुष्क	100	गोविन्दसामी गोंडर पुत्र एकमबारा गोंडर
		165/5ए2	निजी	शुष्क	100	गोविन्दसामी गोंडर पुत्र एकमबारा गोंडर
		165/5बी	निजी	शुष्क	50	सहायक अभियंता, दूरभाष, गुडियाथम
		165/6ए2बी	निजी	मकान स्थल	88	एन पी बिल बनावन पुत्र पोन्नूसामी गोंडर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		165/6बी2	निजी	शुष्क	67	एन पी बिल बनावन पुत्र पोन्नूसामी गोंडर (1) थोपसामी गोंडर पुत्र चिन्नासामी गोंडर (2) विश्वनाथन पुत्र चिन्नासामी गोंडर (3)
		165/6सी1बी	निजी	शुष्क	63	थोपसामी गोंडर पुत्र चिन्नासामी गोंडर
		165/6सी2बी	निजी	मकान स्थल	110	थोपसामी गोंडर पुत्र चिन्नासामी गोंडर
		165/6डी1बी	निजी	शुष्क	350	विश्वनाथन पुत्र चिन्नासामी गोंडर
		165/6डी2बी	निजी	मकान स्थल	108	विश्वनाथन पुत्र चिन्नासामी गोंडर
		176/1बी	निजी	शुष्क	250	पंचायप्पन पुत्र थंगावेल गोंडर (1) चिन्नाथाई पत्नी चिन्नादुराई (2)
		176/2बी	निजी	शुष्क	100	पंचायप्पन पुत्र थंगावेल गोंडर (1) चिन्नाथाई पत्नी चिन्नादुराई (2) वेंकटेशन पुत्र चिन्नाकन्नू गोंडर (3) राजागोपाल पुत्र चेंगलवरायन (4) कमला पत्नी काशीनाथन (5)
		176/3बी	निजी	शुष्क	450	वेंकटेशन पुत्र चिन्नू गोंडर
		176/4ए2	निजी	शुष्क	200	राजा वेलू पुत्र चेंगलवरायन
		176/4बी2	निजी	शुष्क	125	कमला पत्नी काशीनाथन
		176/5ए2	निजी	शुष्क	170	काशीनाथन पुत्र मसीलामणि (1) मुरुगेशन पुत्र चिंगारा गोंडर (2) कन्नन पुत्र मणिक्कम (3)
		176/5बी	निजी	शुष्क	170	शनमुगम पुत्र अर्जुन मुदलियार (1) कुप्पन पुत्र चिन्नासामी (2)
		177/1बी	निजी	शुष्क	150	अर्जुन मुदलियार पुत्र रामासामी मुदलियार
		177/2बी	निजी	शुष्क	50	अरुणाचलम पुत्र रामासामी मुदलियार (1) अरुमुगा मुदलियार पुत्र रामसामी मुदलियार (2) मुनूसामी मुदलियार पुत्र रामासामी मुदलियार (3) कलियप्पा मुदलियार पुत्र रामासामी मुदलियार (4) पेरुमल मुदलियार पुत्र रामासामी मुदलियार (5) अन्नामलाई मुदलियार पुत्र रामासामी मुदलियार (6) धंदापानी मुदलियार पुत्र दुरईसामी मुदलियार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		177/3	निजी	शुष्क	150	मणि पुत्र अरूमुगा मुदलियार (1) नादमुनी पुत्र अरूमुगा मुदलियार (2) गोविन्दन पुत्र अरूमुगा मुदलियार (3) गुनासेकरन पुत्र अरूमुगा मुदलियार (4)
		177/4बी	निजी	शुष्क	50	मुनूसामी मुदलियार पुत्र रामासामी मुदलियार
3.	अग्रमचेरी					
		148/1डी2बी	निजी	शुष्क	200	नटराजन मुदलियार पुत्र गोविन्दराजी मुदलियार (1) थुलासी पुत्र वज्जीरावेल मुदलियार (2) हरिकृष्णन पुत्र वज्जीरावेल मुदलियार (3) गोवम्मल पुत्री वज्जीरावेल मुदलियार (4) गणेशन पुत्र वज्जीरावेल मुदलियार (5) शंकर पुत्र वज्जीरावेल मुदलियार (6) कमलानाथन पुत्र गोविन्द राजी (7) विश्वनाथन पुत्र गोविन्द राजी (8)
		148/1ई1बी	निजी	शुष्क	900	कमलानाथन पुत्र गोविन्द राजी (1) राधम्मल पत्नी लक्ष्मण मुदलियार (2) नटराज मुदलियार पुत्र गोविन्द राजी (3) विश्वनाथन पुत्र गोविन्द राजी (4) थुलासी पुत्र गोविन्द राजी (5) हरि कृष्णन पुत्र गोविन्द राजी (6) गणेशन पुत्र गोविन्द राजी (7) संरक्षक माता गोवम्मल (8)
		148/2बी	निजी	शुष्क	150	एन पलानी पुत्र नटराज मुदलियार (1) एन शिवकुमार पुत्र नटराज मुदलियार (2) एन लक्ष्मी पुत्री नटराज मुदलियार (3)
		149/4बी2	निजी	नम	200	एन पलानी पुत्र नटराजन मुदलियार
		149/5ए2	निजी	नम	1220	एन पलानी पुत्र नटराजन मुदलियार
		150/3बी	निजी	नम	170	एन पलानी पुत्र नटराज मुदलियार (1) एन शिवकुमार पुत्र नटराज मुदलियार (2) एन लक्ष्मी पुत्री नटराज मुदलियार (3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		155/2बी2	निजी	नम	430	कल्याणी पत्नी नतीशा मुदलियार (1) एन सुंदरामूर्ति पुत्र नतीशा मुदलियार (2) एन सम्बंदन पुत्र नतीशा मुदलियार (3) एन सेलवराजी पुत्र नतीशा मुदलियार (4) एन गजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (5) एन राजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (6)
		155/4बी	निजी	नम	50	एन पलानी पुत्र नटराज मुदलियार (1) एन शिवकुमार पुत्र नटराज मुदलियार (2) एन लक्ष्मी पुत्री नटराज मुदलियार (3)
		155/5बी	निजी	नम	160	एन पलानी पुत्र नटराज मुदलियार (1) एन शिवकुमार पुत्र नटराज मुदलियार (2) एन लक्ष्मी पुत्री नटराज मुदलियार (3)
		156/3	निजी	नम	770	कल्याणी पत्नी नतीशा मुदलियार (1) एन सुंदरामूर्ति पुत्र नतीशा मुदलियार (2) एन सम्बंदन पुत्र नतीशा मुदलियार (3) एन सेलवराजी पुत्र नतीशा मुदलियार (4) एन गजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (5) एन राजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (6)
		156/4	निजी	नम	450	कल्याणी पत्नी नतीशा मुदलियार (1) एन सुंदरामूर्ति पुत्र नतीशा मुदलियार (2) एन सम्बंदन पुत्र नतीशा मुदलियार (3) एन सेलवराजी पुत्र नतीशा मुदलियार (4) एन गजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (5) एन राजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (6)
		156/2ए1ए	निजी	नम	250	कल्याणी पत्नी नतीशा मुदलियार (1) एन सुंदरामूर्ति पुत्र नतीशा मुदलियार (2) एन सम्बंदन पुत्र नतीशा मुदलियार (3) एन सेलवराजी पुत्र नतीशा मुदलियार (4) एन गजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (5) एन राजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (6)
		156/ए1बी	निजी	नम	450	श्रीहरि नायडू पुत्र राजा गोपाल नायडू
		157/3	निजी	नम	650	श्रीहरि नायडू पुत्र राजा गोपाल नायडू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		157/4	निजी	नम	680	कल्याणी पत्नी नतीशा मुदलियार (1) एन सुंदरामूर्ति पुत्र नतीशा मुदलियार (2) एन सम्बंदन पुत्र नतीशा मुदलियार (3) एन सेलवराजी पुत्र नतीशा मुदलियार (4) एन गजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (5) एन राजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (6)
		157/1ए1सी	निजी	नम	250	कल्याणी पत्नी नतीशा मुदलियार (1) एन सुंदरामूर्ति पुत्र नतीशा मुदलियार (2) एन सम्बंदन पुत्र नतीशा मुदलियार (3) एन सेलवराजी पुत्र नतीशा मुदलियार (4) एन गजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (5) एन राजेन्द्रन पुत्र नतीशा मुदलियार (6) श्रीहरि नायडू पुत्र राजा गोपाल नायडू (7)
		158/1बी	निजी	नम	600	गणेश मुदलियार पुत्र गोविन्द राजी मुदलियार (1) सरोअम्मल पत्नी गणेश मुदलियार (2)
		525/3ए2	निजी	शुष्क	200	श्रीरामूलू पुत्र चिन्नईया नायडू (1) गोविन्दराजी पुत्र पेरुम्मल सामी (2) सेलवी पत्नी धर्मन (3) आनन्दन पुत्र पेरियासामी (4) कर्णन पुत्र पेरियासामी (5) अरुमुगम पुत्र पेरियासामी (6) उलागनाथ मुदलियार पुत्र पेरियासामी (7)
		531/1बी	निजी	शुष्क	90	मुनीसामी मुदलई पुत्र नारायणसामी मुदलई
		531/2बी	निजी	शुष्क	75	बेबीअम्मल पत्नी वर्धन
		531/3बी	निजी	शुष्क	56	रमन पुत्र गोविन्दसामी
		531/4बी	निजी	शुष्क	40	मणिकम पुत्र मनप्पा गोंडर
		531/5बी	निजी	शुष्क	30	गणपति मुदलई पुत्र मुरुगेसा मुदलई
		531/6बी	निजी	शुष्क	12	जर्नाधनम पुत्र मरी नायडू
		534/2	निजी	शुष्क	3400	अरुलमिगू वीरावर स्वामी कोइल
		535/2	निजी	शुष्क	750	अरुलमिगू वीरावर स्वामी कोइल
		535/3	निजी	शुष्क	400	अरुलमिगू वीरावर स्वामी कोइल
		536/1बी2	निजी	शुष्क	150	अनबू पुत्र पोन्नूराजी
		536/2ए2	निजी	शुष्क	106	राजेशवरी पत्नी विश्वनाथन
		536/2बी	निजी	शुष्क	116	बालारमन पुत्र नारायणसामी मुदलियार
		544/1बी	निजी	शुष्क	1200	अरुलमिगू अवालकोन्डन जागीर कोइल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		544/31बी	निजी	मकान स्थल	132	लक्ष्मी अम्मल पत्नी ए वी पोन्नूसामी
		544/32बी	निजी	मकान स्थल	120	पेरियासामी पुत्र पेरूमल
		544/33बी	निजी	मकान स्थल	67	सेट्टू पुत्र कन्नू (1) रवी पुत्र कन्नू (2) मुनीसामी पुत्र कन्नू (3)
		544/34बी	निजी	मकान स्थल	40	कुप्पूसामी पुत्र नागप्पन
		544/35बी	निजी	मकान स्थल	107	कन्नन पुत्र थंगावेलू (1) एस अनबालगन पुत्र थंगावेलू (2)
		544/36बी	निजी	मकान स्थल	100	गोविन्दन पुत्र पडावेट्टान
		544/37बी	निजी	मकान स्थल	108	देवन पुत्र मुनीयन
		544/38बी	निजी	मकान स्थल	104	कन्नू पुत्र अरुमुघम
		544/39बी	निजी	मकान स्थल	76	चंद्रा पत्नी मनोहरन (1) कथीरवान पुत्र मनोहरन (2) राजा पुत्र मनोहरन (3)
		544/40बी	निजी	मकान स्थल	39	जगदाम्मल पत्नी चिन्नाकुलन्दई (1) सेकर पुत्र चिन्नाकुलन्दई (2)
		544/46	निजी	मकान स्थल	70	गुनासीलन पुत्र मदुरई
		544/48ए	निजी	मकान स्थल	87	रगाम्मल पत्नी सिवालिघम
		544/48बी	निजी	मकान स्थल	56	प्रेमलता पत्नी मदुरई
		544/49	निजी	मकान स्थल	48	प्रेमलता पत्नी मदुरई
		545/2	निजी	शुष्क	300	राजाम्मल पत्नी पेरियासामी (1) सेलवराज पुत्र पेरियासामी (2) रामामूर्ति पुत्र पेरियासामी (3) सुन्दरमूर्ति पुत्र पेरियासामी (4) पेरूमल पुत्र पेरियासामी (5) गोविन्दराजी पुत्र पेरियासामी (6) सुब्रमणि पुत्र पेरियासामी (7) सिवासुब्रमणि पुत्र मुनीसामी (8) शनमुघम पुत्र मुनीसामी (9) नटराजन पुत्र मुनीसामी (10)
		550/65बी	निजी	मकान स्थल	66	धनाम्मल पत्नी राजामणिकम
		550/81बी	निजी	मकान स्थल	114	गोविन्दम्मल पत्नी पेरियासामी
		550/82बी	निजी	मकान स्थल	86	चिन्नापईयन पुत्र मुनीसामी (1) धनपाल पुत्र मुनीसामी (2)
		550/83बी	निजी	मकान स्थल	100	बूपथी अम्मल पत्नी कन्नन (1) जेयरामन पुत्र कन्नन (2) गांधी पुत्र कुप्पन (3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		550/86	निजी	मकान स्थल	90	पोनुसामी पुत्र कुप्पन
		550/89	निजी	मकान स्थल	102	पिटचईमुथू पुत्र महादेवन
		550/91बी	निजी	मकान स्थल	102	मुनीसामी पुत्र मोलवयूकोट्टई
		550/92बी	निजी	मकान स्थल	104	थंगराज पुत्र कुप्पूसामी
		550/93बी	निजी	मकान स्थल	106	पुष्पाराथनम पुत्र मणिक्कम (1) जोहन पुत्र मणिक्कम (2) योवन पुत्र मणिक्कम (3) असिरवाथम पुत्र मणिक्कम (4)
		551/1ए	निजी	मकान स्थल	243	संकरनारायणन पुत्र बास्करा नायडू (1) एल मनीमोझी अरसान पुत्र लाजर चिन्नप्पन (2) मोहम्मद बशा पुत्र सैयद जिया (3)
		551/1बी2	निजी	शुष्क	950	संकरनारायणन पुत्र बास्करा नायडू (1) एल मनीमोझी अरसान पुत्र लाजर चिन्नप्पन (2) मोहम्मद बशा पुत्र सैयद जिया (3)
		551/2बी	निजी	शुष्क	3050	संकरनारायणन पुत्र बास्करा नायडू (1) एल मनीमोझी अरसान पुत्र लाजर चिन्नप्पन (2) मोहम्मद बशा पुत्र सैयद जिया (3)
		560/1ए2	निजी	शुष्क	500	कविथा पत्नी थामरीकन्नन
		560/1बी2	निजी	शुष्क	500	कविथा पत्नी थामरीकन्नन
		560/1सी2	निजी	शुष्क	170	अय्याकन्नू पुत्र कन्नीप्पन (1) कविथा पत्नी थामरीकन्नन (2)
		560/1डी3	निजी	शुष्क	240	कविथा पत्नी थामरीकन्नन
		560/1ई2	निजी	शुष्क	350	अय्याकन्नू पुत्र कन्नीप्पन
		560/2बी	निजी	शुष्क	102	अय्याकन्नू पुत्र कन्नीप्पन
		562/1बी	निजी	नम	367	मुनीस्थीनम पुत्र महादेवन
		562/2बी	निजी	नम	373	मुनीस्थीनम पुत्र महादेवन
		563/2ए2	निजी	नम	350	मुनीस्थीनम पुत्र महादेवन
		564/2	निजी	नम	1370	बूपथी पत्नी राजी (1) नागराज पुत्र राजी (2) इनबादशन पुत्र राजी (3)
		565/1ए	निजी	मकान स्थल	78	इन्द्राणी पत्नी रामकृष्ण अचारी (1) सुन्दरामूर्ति पुत्र रामकृष्ण अचारी (2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		565/1बी	निजी	मकान स्थल	51	कन्नाप्पा अचारी पुत्र देवा अचारी
		565/1सी	निजी	मकान स्थल	88	इन्द्राणी पत्नी रामकृष्ण अचारी (1) सुन्दरामूर्ति पुत्र रामकृष्ण अचारी (2)
		565/1डी	निजी	मकान स्थल	120	कन्नाप्पा अचारी पुत्र देवा अचारी
		565/1ई2	निजी	मकान स्थल	2300	कन्नाप्पा अचारी पुत्र देवा अचारी (1) रामकृष्ण अचारी पुत्र देवा अचारी (2) इन्द्राणी पत्नी रामकृष्ण अचारी (3) सुन्दरामूर्ति पुत्र रामकृष्ण अचारी (4)
		566/2ए2	निजी	शुष्क	1250	आर मुनीराजी पुत्र रामदोस नायडू (1) मुनीम्मल पत्नी पोरकोदी (2) गोविन्दसामी पुत्र पोरकोदी (3) पधमा पुत्री पोरकोदी (4) चन्द्रगिरी पुत्र पोरकोदी (5) कन्नाम्मल पुत्री पोरकोदी (6) अन्नमलाई पुत्र पोरकोदी (7) मूर्ति पुत्र पोरकोदी (8) सुगुना पुत्री पोरकोदी (9) सेलवाम पुत्र पोरकोदी (10)
		580/1बी	निजी	शुष्क	450	आर मुनीराजी पुत्र रामदोस नायडू (1) मुनीम्मल पत्नी पोरकोदी (2) गोविन्दसामी पुत्र पोरकोदी (3) पधमा पुत्री पोरकोदी (4) चन्द्रगिरी पुत्र पोरकोदी (5) कन्नाम्मल पुत्री पोरकोदी (6) अन्नमलाई पुत्र पोरकोदी (7) मूर्ति पुत्र पोरकोदी (8) सुगुना पुत्री पोरकोदी (9) सेलवाम पुत्र पोरकोदी (10)
		580/2ए2	निजी	शुष्क	40	अमीनूर रहमान साहिब पुत्र हाजी अब्दुल सलाम साहिब (मैनेजिंग डायरेक्टर, फलोरेम शूज इंडिया (प्रा0) लि0)
		580/2सी2	निजी	शुष्क	2360	अमीनूर रहमान साहिब पुत्र हाजी अब्दुल सलाम साहिब (मैनेजिंग डायरेक्टर, फलोरेम शूज इंडिया (प्रा0) लि0)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		588/1बी1ए	निजी	नम	320	पन्नीर पुत्र वीरासामी
		592/2ए1	निजी	मकान स्थल	30	राजी पुत्र मुरुगन
		592/2बी1	निजी	मकान स्थल	30	गोविन्दसामी पुत्र पेरीप्प गोंडर
		593/1ए1	निजी	शुष्क	180	मैथ्यूसामी परीश प्रेस्ट, कथोलिक मिशन श्रीमती थेरेसा चर्च पल्लीकोण्डा
		593/1बी1ए	निजी	शुष्क	30	मुरुगेसन पुत्र मुनीसामी नाइकर (1) इलानगोवन पुत्र पधमनाभन (2) थारा रानी पत्नी अरुमुघम (3) ए पलानी पुत्र अरुनाचलम (4) बी संधी पत्नी बाबू अचारी (5) मल्लीगा पत्नी सामीनाथन (6)
		593/1बी1सी	निजी	शुष्क	50	मुरुगेसन पुत्र मुनीसामी नाइकर (1) इलानगोवन पुत्र पधमनाभन (2) थारा रानी पत्नी अरुमुघम (3) ए पलानी पुत्र अरुनाचलम (4) बी संधी पत्नी बाबू अचारी (5) मल्लीगा पत्नी सामीनाथन (6)
		593/1बी2ए	निजी	शुष्क	40	के रवी पुत्र एम कृष्णन
		593/1सी1	निजी	शुष्क	100	मुरुगेसन पुत्र मुनीसामी नाइकर (1) इलानगोवन पुत्र पधमनाभन (2) थारा रानी पत्नी अरुमुघम (3) ए पलानी पुत्र अरुनाचलम (4) बी संधी पत्नी बाबू अचारी (5) मल्लीगा पत्नी सामीनाथन (6)
		593/1डी1	निजी	शुष्क	110	राजगोपाल पुत्र मुनीसामी नाइकर (1) गोविन्दसामी पुत्र वेंकटेशन (2) दक्षिणामूर्ति पुत्र नारायणसामी नायडू (3)
		593/1ई1	निजी	शुष्क	90	गोविन्दराजी पुत्र मुनीसामी नाइकर (1) मिन्नल वेल्ली पुत्र अरुनाचलम (2) ए सेकर पुत्री अरुणाचलम (3) दुर्गा पत्नी जगदीसन (4)
		593/2बी2ए	निजी	नम	100	कन्नन पुत्र पेरीअप्पा गोंडर
		593/2सी1	निजी	नम	60	सेट्टू पुत्र पेरीअप्पा गोंडर
		593/2डी1	निजी	नम	63	गोविन्दसामी पुत्र पेरीअप्पा गोंडर
		593/2ई1	निजी	नम	48	कन्नन पुत्र पेरीअप्पा गोंडर
		593/2एफ1	निजी	नम	56	सेट्टू पुत्र पेरीअप्पा गोंडर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		596/1बी1ए	निजी	मकान स्थल	23	वरधान पुत्र रामासामी नाइकर
		596/1बी7ए	निजी	मकान स्थल	23	गोविन्दसामी पुत्र मुनीसामी नाइकर
		596/1बी 8ए	निजी	मकान स्थल	28	राजगोपाल पुत्र मुनीसामी नाइकर
		596/1बी9ए	निजी	मकान स्थल	27	वेंकटेशन पुत्र मुनीसामी नाइकर
		596/1बी10ए	निजी	मकान स्थल	34	मुरुगेसन पुत्र मुनीसामी नाइकर
		762/1ए1	निजी	मकान स्थल	85	सगादेवन पुत्र वेलान
		762/1ए2ए	निजी	मकान स्थल	1700	सगादेवन पुत्र वेलान
		762/1एफ1	निजी	शुष्क	500	मणिकमल पत्नी चिन्नप्पा उदयार (1) कुल्लान पुत्र चिन्नप्पा उदयार (2) थावमणि पुत्र चिन्नप्पा उदयार (3) पेरूमल पुत्र चिन्नप्पा उदयार (4) कृष्णन पुत्र चिन्नप्पा उदयार (5) सगादेवन पुत्र चिन्नप्पा उदयार (6) कासी पुत्र चिन्नप्पा उदयार (7) पोवनू पुत्र चिन्नप्पा उदयार (8) सुरेश बाबू (अवयस्क) पुत्र कासीनाथन (9) विश्वनाथन पुत्र लक्ष्मणन (10)
		762/2ए1	निजी	शुष्क	100	विश्वनाथन पुत्र लक्ष्मणन
		762/2बी1	निजी	शुष्क	200	थिनामणि पुत्र अन्नामलाई (1) सुंदरमूर्ति पुत्र अन्नामलाई (2) वेदचलम पुत्र अरुणगिरी (3) सगादेवन पुत्र अरुणगिरी (4)
		765/1ए1	निजी	शुष्क	650	थिनामणि पुत्र अन्नामलाई (1) सुंदरमूर्ति पुत्र अन्नामलाई (2) वेदाचलाम पुत्र अरुणगिरी (3) सगादेवन पुत्र अरुणगिरी (4)
		765/1बी1ए	निजी	शुष्क	500	उमापथी पुत्र अनाधारटचगा मुदलई
		765/1बी3ए	निजी	शुष्क	300	मणि नायडू पुत्र
		765/2ए	निजी	शुष्क	950	अप्पादुरई पुत्र पेरूमल (1) मोहन पुत्र अप्पादुरई (2) अन्बू पुत्र अप्पादुरई (3) मरसी एंजलिन लीला पुत्री अप्पादुरई
		768/1ए	निजी	मकान स्थल	130	थंगाराज पुत्र अप्पावू
		768/1बी1	निजी	शुष्क	91	दुरईसामी दुरई पुत्र अप्पावू
		768/1बी3	निजी	शुष्क	65	दुरईसामी दुरई पुत्र अप्पावू
		768/2ए	निजी	मकान स्थल	103	दुरईराज पुत्र अप्पावू
		768/2बी1	निजी	शुष्क	200	थंगाराज पुत्र अप्पावू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		768/3ए	निजी	शुष्क	200	अमुधा पत्नी सुब्रमणि
		768/4ए	निजी	शुष्क	200	जी कलईमथी पत्नी मोहनम
		768/5ए	निजी	शुष्क	150	जी कलईमथी पत्नी मोहनम
		768/6ए	निजी	शुष्क	300	कन्नाम्मल पत्नी कन्नप्पा मुदलियार
		770/2ए	निजी	शुष्क	400	कन्नन पुत्र अय्यायू
		772/1बी	निजी	शुष्क	850	धर्मालिघम पुत्र राजी मुदलियार
		772/2	निजी	शुष्क	450	पी दामोदरन पुत्र बालामुथू मुदलियार
		773/1ए2बी	निजी	शुष्क	450	अप्पानदू नायडू पुत्र दुरईसामी नायडू
		773/1ए3बी	निजी	शुष्क	450	राजा मोहम्मद पुत्र गुडीयाथम जानू साहिब
		773/1बी2बी	निजी	शुष्क	550	राजा मोहम्मद पुत्र गुडीयाथम जानू साहिब
		773/1बी3बी	निजी	शुष्क	350	रवी पुत्र धर्मालिगा मुदलियार
		773/1बी4बी	निजी	शुष्क	50	जर्मालिघम पुत्र राजी मुदलियार
		773/2बी2	निजी	शुष्क	750	पी दामोदरन पुत्र बालामुथू मुदलियार
		773/2के	निजी	मकान स्थल	300	एम कालीप्पान पुत्र मुरुगेसा मुदलियार
		773/2यू	निजी	शुष्क	150	अधीमूलम पुत्र गणपथी मुदलई
		773/2वी	निजी	शुष्क	150	वेंकटेशन पुत्र रामाजयाम
		780/1बी	निजी	शुष्क	700	लक्ष्मी अम्मल पत्नी दामोदरा नायडू (1) श्रीनिवासन पुत्र दामोदरा नायडू (2) वासनथा पुत्र दामोदरा नायडू (3) आनन्दरामन पुत्र दामोदरा नायडू (4) पार्थसारथी पुत्र दामोदरा नायडू (5) जगनायागी पुत्र दामोदरा नायडू (6) सरीरामूलू पुत्र दामोदरा नायडू (7) परीमाला पुत्र दामोदरा नायडू (8)
		780/2बी2	निजी	शुष्क	950	मोहन पुत्र देवराज नायडू (1) चकरापानी पुत्र देवराज नायडू (2) हरीदोस पुत्र देवराज नायडू (3)
		780/2सी2	निजी	शुष्क	100	हरीदोस पुत्र देवराज नायडू (1) मोहन पुत्र देवराज नायडू (2) राजाराम पुत्र देवराज नायडू (3) चकरापानी पुत्र देवराज नायडू (4)
		780/2डी2	निजी	शुष्क	1550	राजाराम नायडू पुत्र देवराज नायडू
		783/1ए2	निजी	शुष्क	600	मुनीसामी पुत्र कंधान (1) करुप्पायी पत्नी मुनीसामी (2)
		783/1बी	निजी	मकान स्थल	53	राजा पुत्र मुनीसामी
		783/1सी	निजी	मकान स्थल	35	गोविन्दराजी पुत्र मुनीसामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		783/1डी	निजी	मकान स्थल	35	पिटचई पुत्र मुनीसामी
		783/1ई	निजी	मकान स्थल	43	राजेन्द्रन पुत्र मुनीसामी
		783/2	निजी	शुष्क	300	करुप्पायी पत्नी मुनीसामी (1) सरधाम्मल पत्नी चिन्नप्पन (2)
		783/3ए2	निजी	शुष्क	800	सरधाम्मल पत्नी चिन्नप्पा (1) मुनीसामी पुत्र कन्दन (2)
		783/3बी	निजी	शुष्क	97	सारधाम्मल पत्नी चिन्नप्पन
		783/4बी	निजी	शुष्क	1100	धानापकियम पत्नी
		784/3ए1बी	निजी	शुष्क	849	अमरावथी अम्मल पत्नी कुप्पन (1) मुरुगेसन पुत्र कुप्पन (2) नवनीथम पुत्री कुप्पन (3) थामरई पुत्री कुप्पन (4) सुसीला पुत्री कुप्पन (5) सेकर पुत्र कुप्पन (6)
		784/3ए2	निजी	मकान स्थल	151	अमरावथी अम्मल पत्नी कुप्पन (1) मुरुगेसन पुत्र कुप्पन (2) सेकर पुत्र कुप्पन (3)
		784/3बी	निजी	शुष्क	200	कानागम्मल पत्नी अप्पासामी (1) के अमरावथी पत्नी कुप्पन (2) सेकर पुत्र कुप्पन (3) मुरुगेसन पुत्र कुप्पन (4) नवनीथम पुत्री कुप्पन (5) सुसीला पुत्री कुप्पन (6) विजयन पुत्र अप्पासामी (7) चन्द्रशेकर पुत्र अप्पासामी (8) सेलवराजी पुत्र अप्पासामी (9)
		784/3सी1बी	निजी	शुष्क	1124	कनागम्मल पत्नी अप्पासामी (1) विजयन पुत्र अप्पासामी (2) चन्द्रसेकर पुत्र अप्पासामी (3) सेलवराजी पुत्र अप्पासामी (4)
		784/3सी2	निजी	मकान स्थल	138	अप्पासामी पुत्र मोट्टई
		798/4बी1बी	निजी	शुष्क	2062	गोपीकृष्णन पुत्र जर्नादनम
		798/4बी2	निजी	मकान स्थल	204	गोपीकृष्णन पुत्र जर्नादनम

[फा. सं. भाराप्र/13011/46 (3डी)/2002-पी आई]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2003

S.O. 198(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 228 (E), dated the 22nd February, 2002, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to the that notification, for the public purpose of building (four-laning) (Krishnagiri – Ranipet Section) of National Highway No.46 on the stretch from (Km 80/580 to Km 92/058) in the State of Tamil Nadu;

And Whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government ;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, the lands specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose ;

And, further in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, on the publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

DISTRICT: VELLORE

TALUK : VANIYAMBADI

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	THOTTALAM					
		11/3B	Private	Dry	050	Ramanjulu s/o Chengalvaraya Naidu (1) Thatchayani Ammal w/o Ramamurthy (2) Thatchinamurthy s/o Ramamurthy (3) (Minor)
		11/5B	Private	Dry	500	Ramanjulu s/o Chengalvaraya Naidu (1) Thangavel s/o Kora subbu (2) Pandu s/o Kora sub' (3) V.Raja s/o Varadhr (4) Jothi s/o Gurumurt y (5) Jeyalakshmi w/o Chandran (6) Y.Solomon s/o Yesupatham (7)
		12/1B	Private	Dry	350	Sankararaji s/o Chinnathambi Naidu
		12/2	Private	Dry	150	Sankara Naidu s/o Venkatrama Naidu
		13/1B	Private	Dry	1050	Kuppusamy Mandiri s/o Govinda Mandiri
		13/2A2	Private	Dry	048	Sankara Naidu s/o Venkatrama Naidu
		13/2B	Private	House Site	306	Sankara Naidu s/o Venkatrama Naidu
		27/2	Private	House Site	1200	Sankararaji s/o Chinnathambi Naidu
		30/5A2	Private	Dry	100	Sankararaji s/o Chinnathambi Naidu
		30/5B2	Private	Dry	400	Kalyani Ammal w/o Sampath Naidu Balachandran s/o Sampath Naidu Mohanam s/o Sampath Naidu (3) Ethiraji s/o Sampath Naidu (4) Gandhi s/o Sampath Naidu (5) Bakthavatchalam s/o Sampath Naidu (6) Sankaran s/o Sampath Naidu (7) Babu s/o Sampath Naidu (8) S.Banumathi d/o Sampath Naidu (9) Murali s/o Sampath Naidu (10) S.Ravi s/o Sampath Naidu (11)
		30/7B	Private	Dry	500	Kalyani Ammal w/o Sampath Naidu Balachandran s/o Sampath Naidu Mohanam s/o Sampath Naidu (3) Ethiraji s/o Sampath Naidu (4) Gandhi s/o Sampath Naidu (5) Bakthavatchalam s/o Sampath Naidu (6) Sankaran s/o Sampath Naidu (7) Babu s/o Sampath Naidu (8) S.Banumathi d/o Sampath Naidu (9) Murali s/o Sampath Naidu (10) S.Ravi s/o Sampath Naidu (11)
		32/2	Private	Dry	350	Srinivasa Naidu s/o Kuppusami Naidu
		33/1B	Private	Dry	950	Sulochana w/o Varadharajulu (1)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Reeta w/o Gajendra Naidu
		33/2	Private	Dry	250	Sulochana w/o Varadharajulu Naidu (1) Reeta w/o Gajendra Naidu (2) R.Baskaran s/o Rajabathar Naidu (3)
		33/3B	Private	Dry	500	R.Baskaran s/o Rajabathar
		33/4B	Private	Dry	500	Sankararaji s/o Chinnathambi Naidu
		33/5B	Private	Dry	1050	Srinivasa Naidu s/o Kuppusamy
		33/6	Private	Dry	200	Sankararaji s/o Chinnathambi Naidu (1) Srinivasulu Naidu s/o Kuppusamy Naidu (2)
		33/7	Private	Dry	050	R.Baskaran s/o Rajabathar (1) R.Janarthanan s/o Rajabathar (2)
		55/2	Private	Dry	1500	M.Durai s/o Murugan
		56/2A2	Private	Wet	150	Arumugham s/o Kulleri
		56/2B2	Private	Wet	700	B.Paldurai s/o Balasundaram
		57/2B	Private	Wet	030	Arumugham s/o Kulleri
		58/1A1B	Private	Wet	150	Anthony Danielraj s/o Isravel
		58/1A2	Private	Wet	077	Anthony Danielraj s/o Isravel (1) Babu Sounderraj s/o Isravel (2) Santha Selvaraj s/o Isravel (3)
		58/1A3B	Private	Wet	350	Santha Selvaraj s/o Isravel
		58/1A4B	Private Private	Wet	300	Babu Sounderraj s/o Isravel
		58/1B	Private	House Site	150	Anthony Danielraj s/o Isravel (1) Babu Sounderraj s/o Isravel (2) Santha Selvaraj s/o Isravel (3)
		58/2B	Private	Wet	700	Babu Sounderraj s/o Isravel
		59/3B1B	Private	Dry	350	Kamalanathan s/o Meshak
		59/3B2B	Private	Dry	600	Manonmani w/o Ponni (1) Vijayan s/o Ponni (2) Tamilarasam s/o Ponni (3) Arunprasad s/o Ponni (4) Giri s/o Ponni (5)
		59/3B3	Private	Dry	050	Kamalanathan s/o Meshak (1) Manonmani w/o Ponni (2) Vijayan s/o Ponni (3) Tamilarasam s/o Ponni (4) Arunprasad s/o Ponni (5) Giri s/o Ponni (6)
		59/4A2B	Private	Dry	1000	Jeyalakshmi w/o Ranganathan
		59/4B2	Private	Dry	150	Anthony Danielraj s/o Isravel (1) Babu Sounderraj s/o Isravel (2) Santha Selvaraj s/o Isravel (3)
		88/4B	Private	House Site	091	Gandhi s/o Daniel
		88/8	Private Private	House Site	082	Lalitha w/o Abishekam (1) Perismay d/o Abishekam (2) Theponash d/o Abishekam (3)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq. Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		88/9	Private	House Site	022	Arjunan s/o Sriramu (1) Subramani s/o Abbai Mandiri (2)
		88/10	Private	House Site	028	Chinnadurai s/o Irusan
		88/11	Private	House Site	049	Kumar s/o Gopal
		88/12B	Private	House Site	750	Thavamani s/o Jeevarathinam (1) Arulmani s/o Saminathan (2) Jessi w/o Thavamani (3) Raji s/o Devaraj (4) George s/o Devaraj (5)
		92/2B	Private	Dry	900	Jegadammal w/o Nagarathinam
		93/1B2	Private	Dry	300	S.D.Babu s/o Duraisamy
		106/34	Private	House Site	132	Kuppan s/o Natesa Gounder (1) Dasarathan s/o Natesa Gounder (2)
		106/35	Private	House Site	017	Pitchandi s/o Muthu Gounder
		106/37B	Private	House Site	128	Kuppusami s/o Munisami Naidu
		106/41B	Private	House Site	200	Palani Mudaliar s/o Vaiyapuri
		106/48	Private	House Site	175	Jeyammal w/o Kumarasami Gounder
		106/50	Private	House Site	079	Arputhammal w/o Gopal Gounder
		106/51	Private	House Site	051	Murugesan s/o Chinnappa Gounder
		106/54B	Private	House Site	076	Danasekaran s/o Annamalai Gounder
		107/1	Private	House Site	046	Govindan s/o Kulandi Gounder
		107/2	Private	House Site	078	Govindan s/o Kulandi Gounder
		107/3	Private	House Site	081	Kanniappan s/o Mahadeva Gounder
		107/4	Private	House Site	104	Tamilselvi w/o Sekar
		107/5	Private	House Site	051	Kuppan s/o Natesa Gounder (1) Dasarathan s/o Natesa Gounder (2)
		109/1	Private	Dry	300	Palani Gounder s/o Duraisami Gounder
		109/2	Private	Dry	450	Ramalingham s/o Duraisami Gounder
		109/3	Private	Dry	100	Palani Gounder s/o Duraisami Gounder
		109/4	Private	Dry	100	Ponnurangam s/o Narayanasami Gounder
		113/1B	Private	Dry	1050	Santhammal w/o Kannayya Naidu (1) Murali s/o Kannayya Naidu (2) Ranganathan (Minor) s/o Kannayya Naidu (3) (Guardian Mother Santhammal)
		113/2B	Private	Dry	100	Ragavalu Naidu s/o Subbayya Naidu
		121/1B2	Private	Dry	012	Logidoss s/o Sivaprakasa Naidu

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		121/5A1B	Private	Dry	030	Logidoss s/o Sivaprakasa Naidu
		121/5A2B	Private	Dry	081	Murugesan s/o Govindasami Naidu
		121/5B1B	Private	Dry	058	Munisami s/o Nalla Venkidikhan
		121/5B2B	Private	Dry	071	Chinnasami @ Lakshmanan S/o Pottu Munikhan
		121/5B3B	Private	Dry	150	Kulandai Ammal w/o Manicka Mandiri (4) Sampoornam w/o Kuppusami Mandiri (2) Ulagamatha w/o Chandran (3) M. Venkatesan s/o Manicka Mandiri (4) M. Raghavan s/o Manicka Mandiri (5)
		122/1B	Private	Dry	250	T. G. Perumal s/o Govinda Mandiri
		122/2B	Private	Dry	500	Govindammal w/o Balasundaram (1) Venkatesan s/o Balasundaram (2) Palani s/o Balasundaram (3) Ravi s/o Balasundaram (4) Babiammal w/o Thola Mandiri (5) Ramalingham s/o Balasundaram (6)
		126/1A	Private	Dry	050	Damodaran s/o Govindasami Naidu (1) Kasthuri w/o Ragavalu Naidu (2)
		126/3A	Private	Dry	300	Easwari Ammal w/o Balaji Naidu
		129/1A1	Private	Dry	084	Selvaraji s/o Rajarathinam
		129/1B1	Private	House Site	074	Selvaraji s/o Rajarathinam
		129/2A	Private	Dry	200	Padhma Jain w/o Rajendrakumar
		129/3A1	Private	Dry	200	Kanagammal w/o Devaraji Naidu (1) Kannan s/o Devaraji Naidu (2) Gengadaran s/o Devaraji Naidu (3) Samidurai s/o Devaraji Naidu (4) Kanchana d/o Devaraji Naidu (5)
		129/3B1	Private	Dry	011	Venkitapathy s/o Govindasami Naidu
		129/4A1	Private	Dry	150	Venkitapathy s/o Govindasami Naidu
		129/4B1	Private	Dry	200	Perumal s/o Govindasami Naidu
		129/4C1	Private	Dry	250	Damodaran s/o Govindasami Naidu (1) Kasthuri w/o Raavalu Naidu (2)
		131/1A	Private	Dry	150	Ragavalu Naidu s/o Subbayya Naidu
		131/2A1	Private	House Site	150	Mohan s/o Sankarayya Naidu (1) Yuvaraj s/o Sankarayya Naidu (2)
		146/3A	Private	House Site	050	Easwari Ammal w/o Balaji Naidu
		161/1A	Private	House Site	062	Ramachandra Naidu s/o Duraisami Naidu
		161/4A	Private	House Site	036	Gopal s/o Duraisami Naidu (1) Pandurangan s/o Duraisami Naidu (2)
		161/7A	Private	House Site	034	Gopal s/o Duraisami Naidu (1) Pandurangan s/o Duraisami Naidu (2)
		162/1A1A	Private	Dry	100	Venkitapathy s/o Govindasami Naidu (1) Perumal s/o Govindasami Naidu (2) Nagaraj s/o Govindasami Naidu (3) Damodaran s/o Govindasami Naidu (4)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		162/1A2A	Private	Dry	100	Easwari Ammal w/o Balaji Naidu
		162/1A3A	Private	Dry	013	Suseela w/o Chandrasekaran (1) Kasthuri Ammal w/o Ragavalu Naidu (2)
		162/1B1	Private	Dry	22	Easwari Ammal w/o Balaji Naidu
		163/1	Private	Dry	850	Chennai State Bhoodan Board, Madurai.
		166/1A	Private	Dry	075	Pushapammal w/o Iyalu
		166/2A	Private	Dry	300	G.Kumar s/o Geore (1) G.udhayakumar s/o George (2) G.Martin s/o George (3)
		166/3A	Private	Dry	025	A.John Richard s/o Arulanandam (1) A.Sampath s/o Arulanandam (2)
		166/4A	Private	Dry	300	G.Kumar s/o Geore (1) G.udhayakumar s/o George (2) G.Martin s/o George (3)
		166/5A	Private	Dry	350	Victoria w/o Manivelu (1) Kumar s/o Manivelu (2)
		166/7A1	Private	House Site	074	Mohan s/o Vedhanayagam
		166/7B1	Private	House Site	145	Dhanaraj s/o Chedian
		166/7C1	Private	Dry	032	Mohan s/o Vedhanayagam (1) Y.Durairaj s/o Yesudoss (2)
		168/1	Private	Dry	1050	Arumugham s/o Kulleri
		173/1A1	Private	Dry	350	Umapathi s/o Varadharaji Naidu
		173/1B1	Private	Dry	150	Umapathi s/o Varadharaji Naidu (1) Pandurangan s/o Varadharaji Naidu (2) Ravi s/o Varadharaji Naidu (3)
		173/1C1	Private	Dry	150	Umapathi s/o Varadharaji Naidu (1) Pandurangan s/o Varadharaji Naidu (2) Ravi s/o Varadharaji Naidu (3)
		174/1	Private	Dry	250	R.Janarthana Naidu s/o Rajabathar Naidu
		176/1A	Private	Dry	150	Kasthuri Ammal w/o S.Ragavalu Naidu
		176/2A	Private	Dry	350	Kasthuri Ammal w/o S.Ragavalu Naidu
		176/3A	Private	Dry	150	Kasthuri Ammal w/o S.Ragavalu Naidu
		179/2A1	Private	Dry	070	Ragavendran s/o Selvasubramanyan
		179/2B1	Private	Dry	068	Ragavendran s/o Selvasubramanyan
		179/2C1	Private	Dry	122	Selvasubramanyan s/o Shanmugham
		179/2C3	Private	Dry	400	Selvasubramanyan s/o Shanmugham
		180/1A	Private	Dry	300	Ragavalu Naidu s/o Subbayya Naidu
		180/7A1	Private	Dry	200	Raman s/o Pethappa Naidu (1) Devaraji s/o Pethappa Naidu (2)
		180/7B1	Private	Dry	150	Manicka Naidu s/o Appai Naidu
		187/1	Private	Dry	500	Chinnappan s/o Venkatrama Naidu
		189/1A1	Private	Dry	050	V.Chinnappan s/o Venkatrama Naidu (1) V.Rangasami s/o Venkatrama Naidu (2) V.Sankaran s/o Venkatrama Naidu (3)
		189/1B1	Private	Dry	050	Chinnappan s/o Venkatrama Naidu
		189/1B3	Private	Dry	200	Chinnappan s/o Venkatrama Naidu
		189/2A1	Private	Dry	150	Chinnappan s/o Venkatrama Naidu
		189/2B1A	Private	Dry	150	G.Sankara Naidu s/o Venkatrama Naidu

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(1) G.Subramanyam s/o Govindan (2) G.Anandan s/o Govindan (3) G.Rajendran s/o Govindan (4) G.Munisami s/o Govindan (5)
		189/2B2A	Private	Dry	027	Baskar s/o Jegadeesa Mudaliar
		290/2A	Private	House Site	027	Kamalammal w/o Duraisami Naidu (1) Logan s/o Duraisami Naidu (2) Babu s/o Duraisami Naidu (3)
		290/6A	Private	House Site	021	Loganathan s/o Krishnasamy Naidu
		290/10A	Private	House Site	014	Ramachandra Naidu s/o Munisami Naidu
		290/13A	Private	House Site	032	Rajammal w/o Chinnaraji Naidu (1) Pitchandi s/o Chinnaraji Naidu (2)
		290/14A	Private	House Site	019	Krishnan s/o Arunachala Mandiri (1) Govindan s/o Arunachala Mandiri (2)
2	Madanur					
		41/1B	Private	Dry	250	Vimala w/o A.V.G.Velu (1) Sharmila d/o A.V.G.Velu (2) Madankumar s/o A.V.G.Velu (3) Gobinath s/o A.V.G.Velu (4)
		42/1B	Private	Dry	850	Vimala w/o A.V.G.Velu (1) Sharmila d/o A.V.G.Velu (2) Madankumar s/o A.V.G.Velu (3) Gobinath s/o A.V.G.Velu (4)
		43/2	Private	Dry	2600	Arulmigu Kaliyamman Koil Present Trustee
		45A/1B	Private	Dry	350	Arulmigu Kaliyamman Koil Present Trustee
		45A/2B	Private	Dry	650	Janardanan s/o Natesa Gounder (1) Gnanavel s/o Natesa Gounder (2) Venugopal s/o Natesa Gounder (3)
		84/2A1B	Private	Dry	8	R.Sankaran s/o Ramasamy Naidu (1) R.Chinappan s/o Ramasamy Naidu (2)
		84/2B2B	Private	Dry	150	Arulmigu Drobathaiaimman Temple Present Trustee
		85/1B	Private	Dry	300	Kamalaveni Ammal w/o Kannappa Mudali
		85/2B	Private	House Site	600	Kamalaveni Ammal w/o Kannappa Mudali
		89/1A2	Private	House Site	48	M.Chennaiya Naidu s/o Munusamy Naidu
		89/1B2	Private	House Site	170	Vengatathiri Naidu s/o Chennaiya Naidu
		89/2B	Private	House Site	312	Suseela Ammal w/o Manogaran
		91A/1A	Private	House Site	55	Ambiga w/o R.S.Mani
		91A/2A	Private	House	30	Radhakrishnan s/o Duraisamy Pillai

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Site		
		91A/3A	Private	House Site	27	Srinivasan s/o D.K.Kuppusamy
		91A/4A	Private	House Site	70	Sagunthalammmal w/o Kothandasamy Pillai
		91A/5a	Private	House Site	80	Ambiga w/o R.S.Mani
		91B/1A	Private	House Site	118	Sulochana w/o Gopal (1) Bathmavathi w/o Loganatha Mudaliar (2) Sagunthala w/o Kothandarama Pillai (3) Arumugam s/o Kannusamy Pillai (4) Balasubramani s/o Kannusamy Pillai (5) Panchatcharam s/o Kannusamy Pillai (6) Shanmugham s/o Kannusamy Pillai (7) Jayavelu s/o Kannusamy Pillai (8) Sundaresan s/o Kamalanadha Pillai (9) Murugesan s/o Kamalanadha Pillai (10) Sankaran s/o Kamalanadha Pillai (11) Vinayagam s/o Kamalanadha Pillai (12) Babu s/o Kamalanadha Pillai (13)
		91B/2A1	Private	House Site	73	Vasanthan w/o Gopal Gounder (1) Sivakumar s/o Gopal Gounder (2)
		91B/2B1	Private	House Site	179	Krishnasamy s/o Bhoopathi Mudaliar (1) Jayaraman s/o Bhoopathi Mudaliar (2)
		91B/2C1	Private	House Site	80	Govindasamy s/o Ekambara Gounder
		91B/2D1	Private	House Site	74	S.Subramaniya Gounder s/o Saminatha Gounder
		91B/2E1	Private	House Site	106	Ganapathi s/o Murugesan Gounder (1) Dakshinamurthi s/o Dharmalinga Gounder (2) Karunamoorthy s/o Dharmalinga Gounder (3)
		91B/2F1	Private	House Site	126	Panchalaiaimmal w/o Seetharama Mudali
		91B/2G1	Private	House Site	115	V.Chandrasekaran s/o Vengatesa Mudali
		92/1B1A	Private	Dry	360	Krishnan s/o Rangasamy Mudaliar
		92/1B2A	Private	House Site	122	Janardanam s/o Sevappa Mudaliar
		92/1B4A	Private	House Site	44	Rangan s/o Erra Munusamy (1) Subramani s/o Ramasamy Achari (2)
		92/1B5A	Private	Dry	87	Baba a Yogamoorthy s/o Rangasamy Mudaliar
		92/2A1A	Private	Dry	53	Ganapathi Gounder s/o Murugesan Gounder
		92/2A2A	Private	Dry	26	Bhanu w/o Suresh
		92/2B1A	Private	House Site	52	Jagadccsan s/o Becmaraj
		92/2B2A	Private	House	36	Jagadccsan s/o Velayudam

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Site		
		92/3A3H2	Private	House Site	30	Kumar s/o Muthu Gounder (1) Velayudam s/o Muthu Gounder (2)
		92/4A	Private	House Site	14	Sagunathala Ammal w/o Kothandasamy
		92/5A	Private	House Site	16	Dasaradhan s/o Masilamani
		92/6A	Private	House Site	22	Udishing s/o Badeshing
		92/7A	Private	House Site	11	Sagunathala Ammal w/o Kothandasamy
		92/8A	Private	House Site	26	Rangasamy Gounder s/o Chinnakkannu Gounder
		97/1A	Private	Dry	450	Thilagam w/o Janarthanam
		97/2A	Private	Dry	50	D.Jayaraman s/o (1) K.Janagiraman s/o (2) G.Govindaraju s/o (3)
		113/1A	Private	Dry	1100	Arulmigu Drobathi Amman, Dharmaraja, and Kalamman Koil - Present Trustee
		121/1A1A	Private	House Site	78	Thangavel s/o Abimannan
		121/1A2A	Private	Dry	200	Adhimoolam s/o Ganesa Gounder (1) Krishnamurthy s/o Sivasankara Mudali(2)
		121/14A	Private	House Site	106	Jayamani s/o Chinnakannan
		122/1A	Private	Dry	13	Bhoopathi Ammal w/o Kanniappan
		122/2	Private	House Site	18	Raja s/o Govindan
		122/3A	Private	House Site	5	Kuppan s/o Chinnappan
		122/4A	Private	House Site	19	Mohan s/o Selvam
		122/5A	Private	House Site	23	Sundari w/o Dhayalan
		122/19A	Private	House Site	24	Ramachandran s/o Govindan
		122/22A	Private	House Site	55	Ambiga w/o Manogaran
		122/23A	Private	House Site	47	Maheswari w/o Kumar
		123/1A	Private	Dry	50	Amsaveni w/o Velu
		123/2A	Private	Dry	100	Loganathan s/o Narayanasamy
		123/3A	Private	Dry	150	Krishnan s/o Lakshmana Gounder
		123/4A	Private	Dry	10	Vengatesan s/o Rajagopal Naicker
		126/1A	Private	Dry	450	Vimala w/o Velu (1) Sharmila d/o Velu (2) Madankumar s/o Velu (3) Madanagopal s/o Velu (4)
		126/3A	Private	Dry	150	Suseela w/o Balasubramaniam (1) Alagesan s/o. Appasamy (2)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		126/4A1	Private	Dry	30	Alagesan s/o Appasamy
		126/4C1	Private	Dry	100	Vasudevan s/o Appasamy
		126/5A2A	Private	Dry	20	Vasudevan s/o Appasamy
		126/5B1	Private	House Site	70	Vadivel Mudali s/o Ponnusamy Mudali
		126/5C1	Private	House Site	60	Bethel Church Present President
		127/1A1	Private	Dry	500	Krishnasamy s/o Govindaraj Mudali
		127/1B1	Private	Dry	300	Arumugam s/o Govindaraj Mudali
		149/1A	Private	Dry	800	Arumugam s/o M.A. Ganesa Gownder (1) Krishnamoorthy s/o Sivasankara Mudali (2)
		149/3A1	Private	Dry	69	Soundararajan s/o Sundaramoorthy
		149/3B1A	Private	Dry	50	Adimoolam s/o M.A. Ganesa Gounder (1) Malarkodi w/o Adimoolam (2) S.Soundararajan s/o Sundaramoorthy (3) Raja s/o Varadan (4) Block Development Officer, Madhanur (5)
		149/3B2A	Private	Dry	70	Adimoolam s/o M.A. Ganesa Gounder (1) Malarkodi w/o Adimoolam (2) S.Soundararajan s/o Sundaramoorthy (3) Raja s/o Varadan (4) Block Development Officer, Madhanur (5)
		149/3B2C	Private	Dry	60	Adimoolam s/o M.A. Ganesa Gounder (1) Malarkodi w/o Adimoolam (2) S.Soundararajan s/o Sundaramoorthy (3) Raja s/o Varadan (4) Block Development Officer, Madhanur (5)
		150/1A1A	Private	House Site	44	Noolamani Ammal w/o Govindaraji Gounder
		150/1A2A	Private	Dry	52	Pappammal w/o Rangasamy Gounder
		150/1A2C	Private	Dry	16	Pappammal w/o Rangasamy Gounder
		150/1B1	Private	Dry	250	Pappammal w/o Rangasamy Gounder
		1501D1	Private	Dry	100	Raniammal w/o Peethambaram
		151/2A	Private	House Site	18	Vijaya w/o Balaiya
		151/3A	Private	House Site	9	Vijaya w/o Balaiya
		151/4A	Private	House Site	19	Govindammal w/o Palani
		151/5A	Private	House Site	47	Moorthy s/o Rangasamy Gounder
		151/6A	Private	House Site	22	Rajaraman s/o Munisamy Gounder (1) Srinivasan s/o Munusamy Gounder (2) Vengatesan s/o Munusamy Gounder (3)
		151/8	Private	House Site	17	Vinayagam s/o Kasinathan Gounder (1) Dhamodaran s/o Kasinathan Gounder (2)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Kumar s/o Kasinathan Gounder (3) Sadanandam s/o Kasinathan Gounder (4)
		151/9	Private	House Site	20	Vinayagam s/o Kasinathan Gounder (1) Dhamodaran s/o Kasinathan Gounder (2) Kumar s/o Kasinathan Gounder (3) Sadanandam s/o Kasinathan Gounder (4)
		151/12A	Private	House Site	47	Kumaresan s/o Perumal Gounder
		151/13A	Private	House Site	32	Kamalammal w/o Gopal Gounder (1) Gajendran s/o Gopal Gounder (2) Ragunathan s/o Gopal Gounder (3)
		151/14A	Private	House Site	37	Kasi s/o Muruga Gounder
		151/44A	Private	House Site	11	Govindammal w/o Palani
		152/1A1	Private	Dry	100	Viswanathan s/o Ponnusamy (1) Lalitha w/o Rajavelu (2) Poongavanam w/o Ponnusamy (3)
		152/1B1	Private	Dry	100	Thoppusamy Gounder s/o Chinnasamy Gounder
		152/1C1	Private	Dry	100	Viswanathan s/o Chinnasamy Gounder
		152/2A	Private	Dry	850	Singaravelu s/o.
		152/4A	Private	Dry	450	Srinivasa Gounder s/o Chinnaiya Gounder (1) Rama Gounder s/o Chinnaiya Gounder (2)
		155/3B	Private	Dry	50	Adimoolam S/o. Ganesa gounder (1) Krishnamoorthy S/o Sivasankara Mudaliyar(2)
		156/3A1B	Private	Dry	200	Syed rabu S/o. Sumeer sahib
		156/3A 2A	Private	Dry	100	M.A Syed Muthusha s/o Sumeer Sahib (1) M.A. Syed Rasheed s/o Sumeer Sahib (2) M.A. Syed Idayath Ali s/o Sumeer Sahib (3)
		156/3B2	Private	Dry	70	Adimoolam S/o. Ganesa Gounder (1) Krishnamoorthy S/o Sivasankara Mudaliyar(2)
		156/3C	Private	Dry	70	Vittalesan S/o. Appunu Gounder
		156/3D1B	Private	Dry	150	Babiammal W/o. Manoharan and Minor Santhi (Guardian Babi Ammal)
		156/3D2B	Private	House Site	200	Babiammal W/o. Manoharan and Minor Santhi (Guardian Babi Ammal)
		156/3D3B	Private	Dry	227	Babiammal W/o. Manoharan and Minor Santhi (Guardian Babi Ammal)
		165/1B	Private	Dry	400	Babiammal W/o. Manoharan and Minor Santhi (Guardian Babi Ammal)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		165/3B	Private	Dry	100	Govindasamy Gounder S/o.Ekambara Gounder
		165/4B	Private	Dry	100	Govindasamy Gounder S/o.Ekambara Gounder
		165/5A2	Private	Dry	100	Govindasamy Gounder S/o.Ekambara Gounder
		165/5B	Private	Dry	50	Asst. Engineer, Telephones, Gudiyatham.
		165/6A2B	Private	House Site	88	N.P. Vilvanathan S/o. Ponnusamy Gounder
		165/6B2	Private	Dry	67	N.P. Vilvanathan S/o. Ponnusamy Gounder (1) Thoppasamy S/o. Chinnasamy Gounder (2) Viswanathan S/o. Chinnasamy Gounder (3)
		165/6C1B	Private	Dry	63	Thoppasamy Gounder S/o Chinnasamy Gounder
		165/6C2B	Private	House site	110	Thoppasamy Gounder S/o Chinnasamy Gounder
		165/6D1B	Private	Dry	350	Viswanathan S/o. Chinnasamy Gounder
		165/6D2B	Private	House site	108	Viswanathan S/o. Chinnasamy gounder
		176/1B	Private	Dry	250	Pachayappan S/o. Thangavel Gounder (1) Chinnathai W/o. Chinnadurai (2)
		176/2B	Private	Dry	100	Pachayappan S/o. Thangavel Gounder (1) Chinnathai W/o. Chinnadurai (2) Venkatesan S/o. Chinnakannu Gounder(3) Rajagopal S/o. Chengalvarayan (4) Kamala W/o. Kasinathan (5)
		176/3B	Private	Dry	450	Venkatesan S/o. Chinnu Gounder
		176/4A2	Private	Dry	200	Rajavelu S/o. Chengalvarayan
		176/4B2	Private	Dry	125	Kamala W/o. Kasinathan
		176/5A2	Private	Dry	170	Kasinathan S/o. Masilamani (1) Murugesan S/o. Chingara Gounder (2) Kannan S/o. Manickam (3)
		176/5B	Private	Dry	170	Shanmugam S/o. Arjuna Mudaliar (1) Kuppan S/o. Chinnasamy (2)
		177/1B	Private	Dry	150	Arjuna Mudaliar S/o. Ramasamy Mudaliar
		177/2B	Private	Dry	50	Arunachalam s/o Ramasamy Mudaliar (1) Arumuga Mudaliar s/o Ramasamy Mudaliar (2) Munusamy Mudaliar S/o Ramasamy Mudaliar (3) Kaliappa Mudaliar S/o. Ramasamy Mudaliar (4) Perumal Mudaliar S/o. Ramasamy Mudaliar (5) Annamalai Mudaliar

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						S/o Ramasamy Mudaliar (6) Dhandapani Mudaliar S/o Duraisamy Mudaliar (7)
		177/3	Private	Dry	150	Mani S/o Arumuga Mudaliar (1) Nadamuni S/o. Arumuga Mudaliar (2) Govindan S/o. Arumuga Mudaliar (3) Gunasekaran S/o. Arumuga Mudaliar (4)
		177/4B	Private	Dry	50	Munusamy Mudaliar S/o Ramasamy Mudaliar
3	Agaramcheri					
		148/1D2B	Private	Dry	200	Nataraja Mudaliar s/o Govindaraji Mudaliar (1) Thulasi s/o Vajjiravel Mudaliar (2) Harikrishnan s/o Vajjiravel Mudaliar (3) Govammal d/o Vajjiravel Mudaliar (4) Ganesan s/o Vajjiravel Mudaliar (5) Sankar s/o Vajjiravel Mudaliar (6) Kamalanathan s/o Govindaraji (7) Viswanathan s/o Govindaraji (8)
		148/1E1B	Private	Dry	900	Kamalanathan s/o Govindaraji (1) Radhammal w/o Lakshmana Mudaliar (2) Nataraja Mudaliar s/o Govindaraji (3) Viswanathan s/o Govindaraji (4) Thulasi s/o Govindaraji (5) Harikrishnan s/o Govindaraji (6) Ganesan s/o Govindaraji (7) Guardian Mother Govammal (8)
		148/2B	Private	Dry	150	N.Palani s/o Nataraja Mudaliar (1) N.Sivakumar s/o Nataraja Mudaliar (2) N.Lakshmi d/o Nataraja Mudaliar (3)
		149/4B2	Private	Wet	200	N.Palani s/o Nataraja Mudaliar
		149/5A2	Private	Wet	1220	N.Palani s/o Nataraja Mudaliar
		150/3B	Private	Wet	170	N.Palani s/o Nataraja Mudaliar (1) N.Sivakumar s/o Nataraja Mudaliar (2) N.Lakshmi d/o Nataraja Mudaliar (3)
		155/2B2	Private	Wet	430	Kalyani w/o Natesa Mudaliar (1) N.Sundaramurthy s/o Natesa Mudaliar (2) N.Sambandan s/o Natesa Mudaliar (3) N.Selvaraji s/o Natesa Mudaliar (4) N.Gajendran s/o Natesa Mudaliar (5) N.Rajendran s/o Natesa Mudaliar (6)
		155/4B	Private	Wet	50	N.Palani s/o Nataraja Mudaliar (1)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						N.Sivakumar s/o Nataraja Mudaliar (2) N.Lakshmi d/o Nataraja Mudaliar (3)
		155/5B	Private	Wet	160	N.Palani s/o Nataraja Mudaliar (1) N.Sivakumar s/o Nataraja Mudaliar (2) N.Lakshmi d/o Nataraja Mudaliar (3)
		156/3	Private	Wet	770	Kalyani w/o Natesa Mudaliar (1) N.Sundaramurthy s/o Natesa Mudaliar (2) N.Sambandan s/o Natesa Mudaliar (3) N.Selvaraji s/o Natesa Mudaliar (4) N.Gajendran s/o Natesa Mudaliar (5) N.Rajendran s/o Natesa Mudaliar (6)
		156/4	Private	Wet	450	Kalyani w/o Natesa Mudaliar (1) N.Sundaramurthy s/o Natesa Mudaliar (2) N.Sambandan s/o Natesa Mudaliar (3) N.Selvaraji s/o Natesa Mudaliar (4) N.Gajendran s/o Natesa Mudaliar (5) N.Rajendran s/o Natesa Mudaliar (6)
		156/2A1A	Private	Wet	250	Kalyani w/o Natesa Mudaliar (1) N.Sundaramurthy s/o Natesa Mudaliar (2) N.Sambandan s/o Natesa Mudaliar (3) N.Selvaraji s/o Natesa Mudaliar (4) N.Gajendran s/o Natesa Mudaliar (5) N.Rajendran s/o Natesa Mudaliar (6)
		156/2A1B	Private	Wet	450	Srihari Naidu s/o Rajagopal Naidu
		157/3	Private	Wet	650	Srihari Naidu s/o Rajagopal Naidu
		157/4	Private	Wet	680	Kalyani w/o Natesa Mudaliar (1) N.Sundaramurthy s/o Natesa Mudaliar (2) N.Sambandan s/o Natesa Mudaliar (3) N.Selvaraji s/o Natesa Mudaliar (4) N.Gajendran s/o Natesa Mudaliar (5) N.Rajendran s/o Natesa Mudaliar (6)
		157/1A1C	Private	Wet	250	Kalyani w/o Natesa Mudaliar (1) N.Sundaramurthy s/o Natesa Mudaliar (2) N.Sambandan s/o Natesa Mudaliar (3) N.Selvaraji s/o Natesa Mudaliar (4) N.Gajendran s/o Natesa Mudaliar (5) N.Rajendran s/o Natesa Mudaliar (6) Srihari Naidu s/o Rajagopal Naidu (7)
		158/1B	Private	Wet	600	Ganesa Mudaliar s/o Govindaraji Mudaliar (1)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		525/3A2	Private	Dry	200	Saroammal w/o Ganesa Mudaliar (2) Sriramulu s/o Chinnayya Naidu (1) Govindaraji s/o Perumalsami (2) Selvi w/o Dharman (3) Anandan s/o Periyasami (4) Kaman s/o Periyasami (5) Arumugham s/o Periyasami (6) Ulaganatha Mudaliar s/o Periyasami (7)
		531/1B	Private	Dry	90	Munisami Mudali s/o Narayanasami Mudali
		531/2B	Private	Dry	75	Baby Ammal w/o Varadhan
		531/3B	Private	Dry	56	Raman s/o Govindasami
		531/4B	Private	Dry	40	Manickam s/o Mannappa Gounder
		531/5B	Private	Dry	30	Ganapathi Mudali s/o Murugesha Mudali
		531/6B	Private	Dry	12	Janarthanam s/o Mari Naidu
		534/2	Govt. Dry	Dry	3400	Arulmigu Veeravar Swami Koil
		535/2	Govt. Dry	Dry	750	Arulmigu Veeravar Swami Koil
		535/3	Govt. Dry	Dry	400	Arulmigu Veeravar Swami Koil
		536/1B2	Private	Dry	150	Anbu s/o Ponnuraji
		536/2A2	Private	Dry	106	Rajeswari w/o Viswanathan
		536/2B	Private	Dry	116	Balaraman s/o Narayanasami Mudaliar
		544/1B	Private	Dry	1200	Arulmigu Aavalkondan Jageer Koil
		544/31B	Private	House site	132	Lakshmi Ammalw/o A. V. Ponnusami
		544/32B	Private	House site	120	Periyasami s/o Perumal
		544/33B	Private	House site	67	Settu s/o Kannu (1) Ravi s/o Kannu (2) Munisami s/o Kannu (3)
		544/34B	Private	House site	40	Kuppusamy s/o Nagappan
		544/35B	Private	House site	107	Kannan s/o Thangavelu (1) S. Anbalagan s/o Thangavelu (2)
		544/36B	Private	House site	100	Govindan s/o Padavettan
		544/37B	Private	House site	108	Devan s/o Munian
		544/38B	Private	House site	104	Kannu s/o Arumugham
		544/39B	Private	House site	76	Chandra w/o Manoharan (1) Kathiravan s/o Manoharan (2) Raja s/o Manoharan (3)
		544/40B	Private	House	39	Jegadammal w/o Chinnakulandai (1)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				site		Sekar s/o Chinnakulandai (2)
		544/46	Private	House site	70	Gunaseelan s/o Madurai
		544/48A	Private	House site	87	Ragammal w/o Sivalingham
		544/48B	Private	House site	56	Premalatha w/o Madurai
		544/49	Private	House site	48	Premalatha w/o Madurai
		545/2	Private	Dry	300	Rajammal w/o Periyasami (1) Selvaraj s/o Periyasami (2) Ramamurthy s/o Periyasami (3) Sundaramurthy s/o Periyasami (4) Perumal s/o Periyasami (5) Govindaraji s/o Periyasami (6) Subramani s/o Periyasami (7) Sivasubramani s/o Munisami (8) Shanmugham s/o Munisami (9) Natarajan s/o Munisami (10)
		550/65B	Private	House site	66	Dhanammal w/o Rajamanickam
		550/81B	Private	House site	114	Govindammal d/o Periyasami
		550/82B	Private	House site	86	Chinnapayyan s/o Munisami (1) Dhanapal s/o Munisami (2)
		550/83B	Private	House site	100	Boopathi Ammal w/o Kannan (1) Jeyaraman s/o Kannan (2) Gandhi s/o Kuppan (3)
		550/86	Private	House site	90	Ponnusami s/o Kuppan
		550/89	Private	House site	102	Pitchaimuthu s/o Mahadevan
		550/91B	Private	House site	102	Munisami s/o Molavukottai
		550/92B	Private	House site	104	Thangaraj s/o Kuppusami
		550/93B	Private	House site	106	Pushparathinam s/o Manickam (1) John s/o Manickam (2) Yovan s/o Manickam (3) Asirvatham s/o Manickam (4)
		551/1A	Private	House site	243	Sankaranarayanan s/o Baskara Naidu (1) L.Manimozhi Arasan s/o Lazar Chinnappan(2) Mohammed Basha s/o Syed Jiya (3)
		551/1B2	Private	Dry	950	Sankaranarayanan s/o Baskara Naidu

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(1) L. Manimozhi Arasan s/o Lazar Chinnappan(2) Mohammed Basha s/o Syed Jiya (3)
		551/2B	Private	Dry	3050	Sankaranarayanan s/o Baskara Naidu (1) L. Manimozhi Arasan s/o Lazar Chinnappan(2) Mohammed Basha s/o Syed Jiya (3)
		560/1A2	Private	Dry	500	Kavitha w/o Thamarikannan
		560/1B2	Private	Dry	500	Kavitha w/o Thamarikannan
		560/1C2	Private	Dry	170	Ayyakannu s/o Kanniappan (1) Kavitha w/o Thamarikannan (2)
		560/1D3	Private	Dry	240	Kavitha w/o Thamarikannan
		560/1E2	Private	Dry	350	Ayyakannu s/o Kanniappan
		560/2B	Private	Dry	102	Ayyakannu s/o Kanniappan
		562/1B	Private	Wet	367	Munirathinam s/o Mahadevan
		562/2B	Private	Wet	373	Munirathinam s/o Mahadevan
		563/2A2	Private	Wet	350	Munirathinam s/o Mahadevan
		564/2	Private	Wet	1370	Boopathi w/o Raji (1) Nagaraj s/o Raji (2) Inbadasan s/o Raji (3)
		565/1A	Private	House site	78	Indrani w/o Ramakrishna Achari (1) Sundaramurthy s/o Ramakrishna Achari (2)
		565/1B	Private	House site	51	Kannappa Achari s/o Deva Achari
		565/1C	Private	House site	88	Indrani w/o Ramakrishna Achari (1) Sundaramurthy s/o Ramakrishna Achari (2)
		565/1D	Private	House site	120	Kannappa Achari s/o Deva Achari
		565/1E2	Private	House site	2300	Kannappa Achari s/o Deva Achari (1) Ramakrishna Achari s/o Deva Achari (2) Indrani Ammal w/o Ramakrishna Achari(3) Sundaramurthy s/o Ramakrishna Achari (4)
		566/2A2	Private	Dry	1250	R. Muniraji s/o Ramadoss Naidu (1) Muniammal w/o Porkodi (2) Govindasami s/o Porkodi (3) Padhma d/o Porkodi (4) Chandragiri s/o Porkodi (5) Kannammal d/o Porkodi (6) Annamalai s/o Porkodi (7)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Murthy s/o Porkodi (8) Suguna d/o Porkodi (9) Selvam s/o Porkodi (10)
		580/1B	Private	Dry	450	R.Muniraji s/o Ramadoss Naidu (1) Muniammal w/o Porkodi (2) Govindasami s/o Porkodi (3) Padhma d/o Porkodi (4) Chandragiri s/o Porkodi (5) Kannammal d/o Porkodi (6) Annamalai s/o Porkodi (7) Murthy s/o Porkodi (8) Suguna d/o Porkodi (9) Selvam s/o Porkodi (10)
		580/2A2	Private	Dry	40	Aminoor Rahman Sahib S/o Haji Abdul Salam Sahib (Managing Director, Florem Shoes India (P) Ltd.)
		580/2C2	Private	Dry	2360	Aminoor Rahman Sahib S/o Haji Abdul Salam Sahib (Managing Director, Florem Shoes India (P) Ltd.)
		588/1B1A	Private	Wet	320	Panneer s/o Veerasami
		592/2A1	Private	House site	30	Raji s/o Murugan
		592/2B1	Private	House site	30	Govindasami s/o Periappa Gounder
		593/1A1	Private	Dry	180	Mathewsami, Parish Priest, Catholic Mission, St. Therasa's Church, Pallikonda.
		593/1B1A	Private	Dry	30	Murugesan s/o Munisami Naicker (1) Elangovan s/o Padhmanabhan (2) Thara Rani w/o Arumugham (3) A.Palani s/o Arunachalam (4) B.Santhi w/o Babu Achari (5) Malliga w/o Saminathan (6)
		593/1B1C	Private	Dry	50	Murugesan s/o Munisami Naicker (1) Elangovan s/o Padhmanabhan (2) Thara Rani w/o Arumugham (3) A.Palani s/o Arunachalam (4) B.Santhi w/o Babu Achari (5) Malliga w/o Saminathan (6)
		593/1B2A	Private	Dry	40	K.Ravi s/o M.Krishnan
		593/1C1	Private	Dry	100	Murugesan s/o Munisami Naicker (1) Elangovan s/o Padhmanabhan (2) Thara Rani w/o Arumugham (3) A.Palani s/o Arunachalam (4)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						B.Santhi w/o Babu Achari (5) Malliga w/o Saminathan (6)
		593/1D1	Private	Dry	110	Rajagopal s/o Munisami Naicker (1) Govindasami s/o Venkatesan (2) Dakshinamurthy s/o Narayanasami Naidu (3)
		593/1E1	Private	Dry	90	Govindaraji s/o Munisamu Naicker (1) Minnal Velli d/o Arunachalam (2) A.Sekar s/o Arunachalam (3) Durga w/o Jegadeesan (4)
		593/2B2A	Private	Wet	100	Kannan s/o Periappa Gounder
		593/2C1	Private	Wet	60	Settu s/o Periappa Gounder
		593/2D1	Private	Wet	63	Govindasami s/o Periappa Gounder
		593/2E1	Private	Wet	48	Kannan s/o Periappa Gounder
		593/2F1	Private	Wet	56	Settu s/o Periappa Gounder
		596/1B1A	Private	House site	23	Varadhan s/o Ramasami Naicker
		596/1B7A	Private	House site	23	Govindasami s/o Munisami Naicker
		596/1B8A	Private	House site	28	Rajagopal s/o Munisami Naicker
		596/1B9A	Private	House site	27	Venkatesan s/o Munisami Naicker
		596/1B10A	Private	House site	34	Murugesan s/o Munisami Naicker
		762/1A1	Private	House site	85	Sagadevan s/o Velan
		762/1A2A	Private	House site	1700	Sagadevan s/o Velan
		762/1F1	Private	Dry	500	Manickammal w/o Chinnappa Udayar (1) Kullan s/o Chinnappa Udayar (2) Thavamani s/o Chinnappa Udayar (3) Perumal s/o Chinnappa Udayar (4) Krishnan s/o Chinnappa Udayar (5) Sagadevan s/o Chinnappa Udayar (6) Kasi s/o Chinnappa Udayar (7) Pownu s/o Chinnappa Udayar (8) Suresh babu (Minor) s/o Kasinathan (9) Viswanathan s/o Lakshmanan (10)
		762/2A1	Private	Dry	100	Viswanathan s/o Lakshmanan
		762/2B1	Private	Dry	200	Thinamani s/o Annamalai (1) Sundaramurthy s/o Annamalai (2) Vedachalam s/o Arunagiri (3) Sagadevan s/o Arunagiri (4)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		765/1A1	Private	Dry	650	Thinamani s/o Annamalai (1) Sundaramurthy s/o Annamalai (2) Vedachalam s/o Arunagiri (3) Sagadevan s/o Arunagiri (4)
		765/1B1A	Private	Dry	500	Umapathi s/o Anadharatchaga Mudali
		765/1B3A	Private	Dry	300	Mani Naidu s/o
		765/2A	Private	Dry	950	Appadurai s/o Perumal (1) Mohan s/o Appadurai (2) Anbu s/o Appadurai (3) Mercy Angelin Leela d/o Appadurai
		768/1A	Private	House site	130	Thangaraj s/o Appavu
		768/1B1	Private	Dry	91	Duraisami @ Durai s/o Appavu
		768/1B3	Private	Dry	65	Duraisami @ Durai s/o Appavu
		768/2A	Private	House site	103	Durairaj s/o Appavu
		768/2B1	Private	Dry	200	Thangaraj s/o Appavu
		768/3A	Private	Dry	200	Amudha w/o Subramani
		768/4A	Private	Dry	200	G.Kalaimathi w/o Mohanam
		768/5A	Private	Dry	150	G.Kalaimathi w/o Mohanam
		768/6A	Private	Dry	300	Kannammal w/o Kannappa Mudaliar
		770/2A	Private	Dry	400	Kannan s/o Ayyavu
		772/1B	Private	Dry	850	Dharmalingham s/o Raji Mudaliar
		772/2	Private	Dry	450	P.Damodaran s/o Balamuthu Mudaliar
		773/1A2B	Private	Dry	450	Appandu Naidu s/o Duraisami Naidu
		773/1A3B	Private	Dry	450	Raja Mohammed s/o Gudiyattam Janu Sahib
		773/1B2B	Private	Dry	550	Raja Mohammed s/o Gudiyattam Janu Sahib
		773/1B3B	Private	Dry	350	Ravi s/o Dharmalinga Mudaliar
		773/1B4B	Private	Dry	50	Dharmalingham s/o Raji Mudaliar
		773/2B2	Private	Dry	750	P.Damodaran s/o Balamuthu Mudaliar
		773/2K	Private	House site	300	M.Kaliappan s/o Murugesu Mudaliar
		773/2U	Private	Dry	150	Adhimoolam s/o Ganapathi Mudali
		773/2V	Private	Dry	150	Venkatesan s/o Ramajayam
		780/1B	Private	Dry	700	Lakshmi Ammal w/o Damodara Naidu (1) Srinivasan s/o Damodara Naidu (2) Vasanth d/o Damodara Naidu (3) Anandaraman s/o Damodara Naidu (4) Parthasarathy s/o Damodara Naidu (5) Jeganayagi D/o Damodara Naidu (6) Sriramulu s/o Damodara Naidu (7) Parimala d/o Damodara Naidu (8)
		780/2B2	Private	Dry	950-	Mohan s/o Devaraj Naidu (1)

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Chakrapani s/o Devaraj Naidu (2) Haridoss s/o Devaraj Naidu (3)
		780/2C2	Private	Dry	100	Haridoss s/o Devaraj Naidu (1) Mohan s/o Devaraj Naidu (2) Rajaram s/o Devaraj Naidu (3) Chakrapani s/o Devaraj Naidu (4)
		780/2D2	Private	Dry	1550	Rajaram Naidu s/o Devaraj Naidu
		783/1A2	Private	Dry	600	Munisami s/o Kandhan (1) Karuppayee w/o Munisami (2)
		783/1B	Private	House site	53	Raja s/o Munisami
		783/1C	Private	House site	35	Govindaraji s/o Munisami
		783/1D	Private	House site	35	Pitchai s/o Munisami
		783/1E	Private	House site	43	Rajendran s/o Munisami
		783/2	Private	Dry	300	Karuppayee w/o Munisami (1) Saradhammal w/o Chinnappan (2)
		783/3A2	Private	Dry	800	Saradhammal w/o Chinnappan (1) Munisami s/o Kandan (2)
		783/3B	Private	Dry	97	Saradhammal w/o Chinnappan
		783/4B	Private	Dry	1100	Dhanapackiam w/o
		784/3A1B	Private	Dry	849	Amaravathi Ammal w/o Kuppan (1) Murugesan s/o Kuppan (2) Navaneetham d/o Kuppan (3) Thamarai d/o Kuppan (4) Suseela d/o Kuppan (5) Sekar s/o Kuppan (6)
		784/3A2	Private	House site	151	Amaravathi Ammal w/o Kuppan (1) Murugesan s/o Kuppan (2) Sekar s/o Kuppan (3)
		784/3B	Private	Dry	200	Kanagammal w/o Appasami (1) K. Amaravathi w/o Kuppan (2) Sekar s/o Kuppan (3) Murugesan s/o Kuppan (4) Navaneetham d/o Kuppan (5) Suseela d/o Kuppan (6) Vijayan s/o Appasami (7) Chandrasekar s/o Appasami (8) Selvaraji s/o Appasami (9)
		784/3C1B	Private	Dry	1124	Kanagammal w/o Appasami (1) Vijayan s/o Appasami (2) Chandrasekar s/o Appasami (3) Selvaraji s/o Appasami (4)
		784/3C2	Private	House	138	Appasami s/o Mottai

Sl.No.	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of land in Sq.Mts.	Name of the owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Site		
		798/4B1B	Private	Dry	2062	Gopikrishnan s/o Janarthanam
		798/4B2	Private	House Site	204	Gopikrishnan s/o Janarthanam

[F. No. NHAI/13011/46 (3D)/2002-PI]

ALOK RAWAT, Jt. Secy. (Road Transport and Highways)